



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2—जनवरी 8, 2010 (पौष 12, 1931)

No. 1]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2—JANUARY 8, 2010 (PAUSA 12, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

सं. 2/2/07-प्रशासन/65764--केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री राजीव वर्मा को अवर सचिव के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन 6,600/- के साथ तदर्थ आधार पर दिनांक 11.12.2009 से छः माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

आर. एन. नायक

अवर सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. 18/10/2007-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री भुपिन्दर सिंह राणा, उप कमांडेंट, 12वीं बटालियन, सी.सु.बल, सीमा नगर, पश्चिम बंगाल,

को दिनांक 9.11.2009 पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- (नये वेतनमान पी बी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- में तीन वर्ष की अवधि के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, के संवर्ग के अधीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़ में उप प्रधानाचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

धनी राम

सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

सं. ओ.दो.-6426/2009-कार्मिक (सहा. कमा.)--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 13.10.2009 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री बी. डी. विनोद कुमार, सहायक कमान्डेंट (आई.आर.एल.ए.-6426) 146 बटालियन के रिपुबल, ने दिनांक 01.12.2009 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया।

तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.12.2009 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

सं. ई-16015 (2)/2/2009/कार्मिक-I/362--राष्ट्रपति, के.औसुब के निम्नलिखित उप महानिरीक्षकों को रु. 37,400--67,000/- + रु. 10,000/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में महानिरीक्षक के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से इस पद पर नियुक्त करते हैं :--

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	वरिष्ठ कमान्डेंट के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
----------------	---	--

सर्वश्री/श्रीमति

डी. एस. बड़वाल	एन ई एस मुख्यालय कोलकाता (प. बं.)	09.12.2009 (अपराह्न)
----------------	-----------------------------------	-------------------------

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-16015 (2)/2/2009/कार्मिक-I/364--सरकारी सेवा में अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री अजीत सिंह शेखावत ने महानिरीक्षक/प्रशासन, के.औसुब मुख्यालय, नई दिल्ली का कार्यभार दिनांक 30.11.2009 (अपराह्न) को छोड़ दिया है।

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-16015 (2)/2/2009/कार्मिक-I/363--राष्ट्रपति, के.औसुब के निम्नलिखित कमान्डेंटों को रु. 37,400--67,000/- + रु. 8,700/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में वरिष्ठ कमान्डेंट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उन्हें पदोन्नति की नोशनल तिथि 19.04.2007 देते हुए इस पद पर नियुक्त करते हैं :--

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	वरिष्ठ कमान्डेंट के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
श्री सुरेश कुमार, के. सी.	ई. सी. एल सीतलपुर	19.04.2007 (पदोन्नति की नोशनल तिथि)

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

सं. प्रशा. I/206--महानिदेशक लेखा परीक्षा निम्नलिखित कर्मचारियों को रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 16.12.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कर्मचारी कोड
1.	श्री जगमिन्दर सिंह	1509
2.	श्री नितिन सुमन	1634
3.	श्री बाला जी. वी. एस. दुर्गा प्रसाद	1416
4.	श्रीमती रूपा पाठक	1493
5.	श्रीकृष्ण	1522

वी. के. दवे

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार
पटना-800001, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. एल.ए. प्रशा. I-स.ले.प./1639-1640--अनुभाग अधिकारी तथा सहायक लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी पदों के आमेलन तथा उसे समूह 'ब' राजपत्रित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारी दिनांक 27.05.09 से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर समझे जाएंगे :--

1. श्री प्रमोद कुमार सिंह
2. श्री भुवन भास्कर
3. श्री राजीव कुमार
4. श्री शशिधर कान्त
5. श्री विश्वजीत कुमार श्रीवास्तव
6. श्री दिवाकर राय
7. श्री अमिताभ कुमार
8. श्री कुमार भूषण
9. श्री कमल किशोर
10. श्री शम्भू प्रसाद गुप्ता
11. श्री बिनोद कुमार-II
12. श्री तनवीर हसन
13. श्री विनयशील गौतम
14. श्री सुमेश्वर पासवान
15. श्री सत्य प्रकाश सिंह

डी. जय शंकर
स्थानीय लेखा परीक्षक

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 23 नवम्बर 2009

सं. का.स्था. (ह व रो)/ई IV पें/118--आईए तथा एडी के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी तिथि से सेवानिवृत्त होते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री एस. डिक्सन	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, (अधिर्वर्षिता) तिरुवनंतपुरम	31.10.2009 अ.
2.	श्री एन. मोहनदास	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, (अधिर्वर्षिता) तिरुवनंतपुरम	31.10.2009 अ.

हस्ता./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

सं. ए. 32013/5/2008/ए-6--राष्ट्रपति, श्री सुन्दर लाल, भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह-क) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उप महानिदेशक के पद पर पे बैंड पी बी-4 में रु. 37,400--67,000/- + 10,000/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 16.10.2009 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. के. सक्सेना
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

सं. ए. 19011/429/2003-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री आर. ए. मिश्रा, रसायनविद् को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दि. 10.11.2009 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ रसायनविद् के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 9 दिसम्बर 2009

सं. ए. 19011/294/91-स्था. ए. पी.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री के. डी. ढोमणे, सहायक खनन अभियंता को

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दि. 4.12.2009 (पूर्वाह्न) से सहायक खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 11 दिसम्बर 2009

सं. ए. 19011/533/08-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एस. के. शामी, सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दि. 4.12.2009 (अपराह्न) से उप खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

नागपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

सं. ए. 19012/302/084-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री सी. बी. मालवीया, संपादक, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 8.12.2009 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ संपादक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 17 नवम्बर 2009

सं. 1171बी/ए. 19011/2-आर.के./2008/19बी--राष्ट्रपति जी, श्री राजेश कुमार को भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- के साथ वेतन बैंड-3 के वेतनमान में रुपए 15,600--39,100/- में सामान्य नियमों के अनुसार अस्थायी आधार पर 26.06.2009 (पूर्वाह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कार्तिकेय वर्मा
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I
कृते महानिदेशक

सं. 1172बी/ए. 19011/2-ए.वी.के./2008/19बी--राष्ट्रपति जी, श्री अजय विनायक कुलकर्णी को भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सामान्य नियमों के अनुसार ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- के साथ वेतन बैंड-3 के वेतनमान में रुपए 15,600--39,100/- में

अस्थायी आधार पर 20.07.2009 (पूर्वाह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कार्तिकेय वर्मा
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I
कृते महानिदेशक

सं. 1173बी/ए. 19011/(2-एल.के.के.)/2008/19बी--राष्ट्रपति जी, श्री ललित कुमार खत्री को भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रूपए 5,400/- ग्रेड वेतन के साथ रूपए 15,600--39,100/- के वेतनमान/वेतन बैंड-3 में सामान्य नियमानुसार अस्थायी आधार पर 26.06.2009 (पूर्वाह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कार्तिकेय वर्मा
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I
कृते महानिदेशक

शुद्धि-पत्र

सं. 1174बी/ए. 19011/(2-एल.के.के.)/2008/19बी--इस कार्यालय की अधिसूचना सं. 1888ए से 1898ए एवं 4036एस.पी. से 4041 एस. पी./ए-19011/2-एल.के.के./2008/19बी, दिनांक 18.08.2009 में आंशिक संशोधन के तहत श्री ललित कुमार खत्री के भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 26.06.2009 के बदले 13.07.2009 (पूर्वाह्न) पढ़ी जाए।

अन्य सूचनाएं अपरिवर्तित हैं।

कार्तिकेय वर्मा
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 11 दिसम्बर 2009

सं. 6251/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पी.बी.-2 में रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रुपये 4,600/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एन. जे. चाको	04.11.2009
2.	श्रीमती डेजी चेरियन	03.11.2009

पी. एन. कौल
मेजर जनरल
अपर महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 31 जुलाई 2009

आदेश

सं. 1/15(4)/2007-सतर्कता/530--जैसाकि, यह आरोप लगाया गया था कि श्री दीन दयाल पांडे परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, की भूकालानुक्रम प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी-डी के रूप में पदस्थ रहने के दौरान, उन्हें स्वीकृत छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद से दिनांक 29.10.2005 से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जिससे प्रयोगशाला का कार्य प्रभावित हुआ।

उपरोक्त कृत्य से, श्री दीन दयाल पांडे ने यह प्रदर्शित किया है कि वह ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं तथा उन्होंने सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय व्यवहार किया है, जिसके द्वारा उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 के उपनियम (i) (ii) तथा (iii) का उल्लंघन किया है।

और जैसाकि, उक्त श्री दीन दयाल पांडे को, उन पर लगाये गये आरोप तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अधीन, उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना दिनांक 21.11.2007 के ज्ञापन सं. 1/15(4)/2007-सतर्कता/7289 द्वारा दी गई थी।

और जैसा कि उक्त श्री दीन दयाल पांडे ने अपने बचाव में दिनांक 21.01.2008 को लिखे गए पत्र द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को स्वीकार नहीं किया था।

और जैसाकि, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अधीन, जाँच करने हेतु दिनांक 06.06.08 के आदेश सं. 1/15(4)/2007-सतर्कता/25 द्वारा आदेश जारी किया गया था तथा दिनांक 06.06.08 को ही आदेश सं. 1/15(4)/2007-सतर्कता/24 द्वारा क्रमशः एक जाँच प्राधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।

और जैसाकि, दिनांक 11.08.2008 की प्राथमिक सुनवाई के दौरान, उक्त श्री दीन दयाल पांडे ने दिनांक 11.08.2008 के पत्र द्वारा उनके ऊपर लगाये गये आरोपों को बिना शर्त स्वीकार कर लिया था।

और जैसाकि, जाँच कार्यवाही पूरी होने के बाद, जाँच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.08.2008 की उनकी रिपोर्ट में श्री दीन दयाल पांडे के खिलाफ लगाये गये आरोपों को संदेह के परे साबित ठहराया गया है।

और जैसाकि, जाँच रिपोर्ट तथा मामले से संबंधित अन्य रिकॉर्डों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरान्त, अनुशासनिक प्राधिकारी, जाँच प्राधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्ष से सहमत थे।

और जैसाकि, जाँच रिपोर्ट की एक प्रति, दिनांक 15.10.2008 के ज्ञापन सं. 1/15(4)/2007-सतर्कता/323 के माध्यम से उक्त श्री दीन दयाल पांडे को भेजी गई थी ताकि जाँच रिपोर्ट के खिलाफ यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहें तो लिखित रूप में दे सकें।

और जैसाकि, उक्त श्री दीन दयाल पांडे के सिकंदराबाद पते पर भेजे गये दिनांक 15.10.2008 के ज्ञापन सं. 1/15(4)/2007-सतर्कता/323

की पावती दिनांक 01.11.2008 को दी गई थी तथा अन्य प्रति जो उनके हैदराबाद पते पर भेजी गई थी बिना पावती वापस आ गई थी जिस पर डाक द्वारा अभ्युक्ति लिखी गई थी कि "पते पर रहने वाला चला गया है।" श्री दीन दयाल पांडे से किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बावजूद श्री दीन दयाल पांडे ने दिनांक 15.12.2008 को अपने पत्र में अपनी छुट्टी 31.12.2009 की अवधि तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया था। छुट्टी स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा, उक्त श्री पांडे द्वारा किये गये छुट्टी बढ़ाये जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था जिसकी सूचना उन्हें दिनांक 30.12.2008 के टेलिग्राम द्वारा दे दी गई थी। अब तक श्री पांडे ने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया है तथा अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते चले आ रहे हैं।

और जैसाकि, जाँच रिपोर्ट तथा मामले के अन्य संबंधित रिकार्डों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि इस मामले में, उक्त श्री दीन दयाल पर "सेवा से पदच्युति (बर्खास्तगी)" का दंड लगाया जाना, न्यायोचित एवं उपयुक्त होगा।

और जैसाकि संघ लोक सेवा आयोग से इस मामले पर सलाह ली गई थी। आयोग द्वारा सभी संबंधित रिकार्डों तथा मामले के अन्य पहलुओं पर विचार किये जाने के पश्चात्, दिनांक 23.06.09 के पत्र सं. एफ. 3/4/2009-एसआई (प्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त श्री दीन दयाल पांडे पर "सेवा से पदच्युति (बर्खास्तगी) जिससे वह साधारणतः भविष्य में सरकारी सेवा के अधीन नियोजन हेतु अनर्हक हो," का दंड लगाने की सलाह दी गई थी।

और जैसाकि सं.लो.से. आयोग की सलाह पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग की सलाह के अनुसार, यानि उक्त श्री पांडे पर "सेवा से पदच्युति (बर्खास्तगी)" का दंड लगाया जाना स्वीकार कर लिया गया।

अतः राष्ट्रपति द्वारा, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में पदस्थ उक्त श्री दीन दयाल पांडे, वैज्ञानिक अधिकारी-डी, पर "सेवा से पदच्युति (बर्खास्तगी) जिससे वह साधारणतः भविष्य में सरकारी सेवा के अधीन नियोजन हेतु अनर्हक हो," का दंड लगाया जाता है।

दिनांक 29.10.2005 से लेकर इस आदेश के जारी होने की तिथि तक उनकी अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थिति को अकार्य दिवस के रूप में माना जाये।

राष्ट्रपति के नाम पर तथा आदेश द्वारा जारी।

श्री दीन दयाल पांडे,
वैज्ञानिक अधिकारी-डी, एएमडी, द्वारा : निदेशक, पखनि, हैदराबाद
हाउस नं. 1-12-110ए अलवाल,
सिकंदराबाद-500010.

श्री दीन दयाल पांडे,
वैज्ञानिक अधिकारी-डी, एएमडी, द्वारा : निदेशक, पखनि, हैदराबाद
हाउस नं. 4-6-224, इसामिया बाजार,
हैदराबाद-500027.

अनिल काकोडकर
सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार
कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं
मैसर्स वर्धमान एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

सं. आर.ओ.सी./52309/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वर्धमान एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं
मैसर्स स्कोप इनफिन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

सं. आर.ओ.सी./19610/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्कोप इनफिन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामलों :

मुंबई, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

संख्या—आरओसी/560।5।/2009— कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 15। की उप-धारा 15। के अनुसरण में एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज दिनांक को रजिस्टर में काट दिये गये । तथा उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई है ।

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	कम्पनी का नाम	धारा 560(5) के अंतर्गत
1	1390	नरोत्तम एण्ड परेरा प्रा लि.	17/11/2009
2	1554	हेग थियेटर प्रा लि.	17/11/2009
3	1630	यूनाइटेड ईस्टर्न एजन्सी प्रा लि	17/11/2009
4	2836	एक्सेलसियर इलेक्ट्रिक लैम्पस प्रा लि	17/11/2009
5	3465	इन्शुरेन्स फाइनेन्स & जनरल सर्विस प्रा लि	17/11/2009
6	3503	बाम्बे टेडिंग कम्पनी प्रा लि	17/11/2009
7	3509	सांघवी एण्ड सन्स प्रा लि	17/11/2009
8	3587	टाइवाकाम प्रा लि	17/11/2009
9	3606	यूनिवर्सल कोल कम्पनी प्रा लि	17/11/2009
10	3736	बाम्बे इनव्हेस्टमेंट कम्पनी प्रा लि	17/11/2009
11	3737	हनुमान टेडिंग कम्पनी प्रा लि	17/11/2009
12	3741	इण्डस्ट्रियल डाइय&केमिकल्स प्रा लि	17/11/2009
13	3752	अफ्रिका ट्रेडर्स & एक्सपोर्ट्स प्रा लि	17/11/2009
14	3810	टाइ ओशन डाइनेमिक प्रा लि	17/11/2009
15	3822	लक्ष्मी इनव्हेस्टमेंट ट्रस्ट प्रा लि	17/11/2009
16	3824	इंडिया बोल्ट & प्रा लि	17/11/2009
17	3841	राजा बहादुर मोतीलाल प्रा लि	17/11/2009
18	3849	न्यू इंडिया पिक्चर्स प्रा लि	17/11/2009
19	3898	शेअर ट्रेडर्स प्रा लि	17/11/2009
20	3907	हिंद अफ्रिका एजन्सी प्रा लि	17/11/2009
21	3910	बवानी टेडिंग प्रा लि	17/11/2009
22	3954	खटाउ वल्लभदास प्रा लि	17/11/2009
23	3967	झून झूनवाला सन्स प्रा लि	17/11/2009
24	3985	धसमन सन्स प्रा लि	17/11/2009
25	3991	न्यू बाम्बे थियेटर प्रा लि	17/11/2009
26	4172	गुजरात एडवर्टाइजिंग प्रा लि	17/11/2009
27	4212	न्यू युनाइटेड कन्सल्टेशन प्रा लि	17/11/2009
28	4257	ऑटो ट्रेडर्स बाम्बे प्रा लि	17/11/2009
29	4294	वेचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स & इण्डस्ट्रिज प्रा लि	17/11/2009
30	4308	राजा बहादुर सुखदेव सहाय जैन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा लि	17/11/2009
31	12262	वेस्टर्न इंडिया एग्रो-केमिकल्स प्रा लि	17/11/2009

32	12610	बैनको एण्टरप्राइजेस प्रा लि	17/11/2009
33	12704	ठनसाइन इन्जिनियर्स प्रा लि	17/11/2009
34	12705	इमेज इंजिनियरिंग कंपनी प्रा लि	17/11/2009
35	12712	पिनटेक्स प्रा लि	17/11/2009
36	12713	रेडिअंट रबबर इण्डस्ट्रिज प्रा लि	17/11/2009
37	12722	अश्वनि टेडर्स प्रा लि	17/11/2009
38	12725	बाम्बे एन्कर चेन्स प्रा लि	17/11/2009
39	12728	टोयले टान्सपोर्ट प्रा लि	17/11/2009
40	12746	अमैलगॅमेटेड अॅसोसिएट्स प्रा लि	17/11/2009
41	12759	टेलस्टार एडवर्टाइजिंग प्रा लि	17/11/2009
42	12773	प्रोडक्शन्स प्रा लि	17/11/2009
43	12811	फिल्मास्को प्रा लि	17/11/2009
44	12820	केमिडा (इंडिया) प्रा लि	17/11/2009
45	12839	सच्चासौदा चिट फण्ड प्रा लि	17/11/2009
46	12840	वाधी ब्रदर्स प्रा लि	17/11/2009
47	12846	मिल्लनस प्रोडक्ट्स प्रा लि	17/11/2009
48	12866	ठसजेस रिसर्च सर्विसेज प्रा लि	17/11/2009
49	12882	मेघाला चिट फण्ड प्रा लि	17/11/2009
50	12884	स्वेन सिज एक्सपोर्ट प्रा लि	17/11/2009
51	12889	स्वेन सिज एक्सपोर्ट्स प्रा लि	17/11/2009
52	12891	व्यू सि प्रा लि	17/11/2009
53	12896	पिस पब्लिकेशन्स प्रा लि	17/11/2009
54	12899	गेटवे टूर्स प्रा लि	17/11/2009
55	12910	अरनासा इजि&मेनिफेकचरिंग कं प्रा लि	17/11/2009
56	12917	फेमिली बेनिफिट सर्विसेज फंड प्रा लि	17/11/2009
57	12932	पसारी इस्टेट्स प्रा लि	17/11/2009
58	12936	रेणू इनव्हेस्टमेंट्स प्रा लि	17/11/2009
59	12948	थ्वपन प्रा लि	17/11/2009
60	12949	श्री अरविंद डाई केम इण्डस्ट्रिज प्रा लि	17/11/2009
61	12956	स्टाबिट बिल्डींग यूनिट प्रा लि	17/11/2009
62	12958	तांबावाला नान फेरस मेटल एजन्सीज प्रा लि	17/11/2009
63	12963	अभिनव चिट फंड प्रा लि	17/11/2009
64	12970	मयूर आर्ट प्रा लि	17/11/2009
65	12974	पेफको प्रा लि	17/11/2009
66	12983	निर्मल रबबर & बोर्ड प्रा लि	17/11/2009
67	12987	सुशील एम बिलाने&कंपनी प्रा लि	17/11/2009
68	13000	एमकेआरटी कन्सट्रक्शन कंपनी प्रा लि	17/11/2009
69	13004	बाम्बे लुब्रिकेन्ट्स& फियुलडिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा लि	17/11/2009
70	13010	इंडेक्स टेडर्स प्रा लि	17/11/2009
71	13025	स्टर्लिंग एड्स प्रा लि	17/11/2009
72	13030	रश्मि एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
73	13034	एम टी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
74	13042	प्रोस्पेक्ट चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
75	13045	अरोमा ट्रेडिंगकम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009

76	13047	बैंक बे बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
77	13050	सर्वोदय चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
78	13052	इनव्हेस्टर्स इस्टेट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
79	13077	मल्होत्रा फाइनेन्स & एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
80	13080	जॉयसी टाईम्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
81	13091	सिम्स मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
82	13115	आनंद बेनिफिट सोसायटी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
83	13658	सत्ययुग चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
84	13661	नित्यानंद चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
85	13666	महाराष्ट्र फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
86	13670	शेटटीज चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
87	13671	श्रीनिवास चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
88	13678	झंकार चिट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
89	13682	ब्रिटेनिक होजियरी (ओवरसिज)कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
90	13689	कोठारी बेनिफिट चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
91	13693	व्हेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
92	13694	साउण्ड चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
93	13699	मंधाराम&सन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
94	13700	त्रिवेणी बेनिफिट चिट फंड प्रा. लि.	17/11/2009
95	13703	वामगार चिट फंड प्रा.लि.	17/11/2009
96	13709	लक्ष्मीचंद सन्स प्रा.लि.	17/11/2009
97	13721	एस प्रतिमा चिट फंड प्रा. लि.	17/11/2009
98	13731	सेवन सीज शिपिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
99	13738	ग्राफिन वेल पॉइंट इंडिया प्रा.लि.	17/11/2009
100	13743	लोकप्रिय सेल्स अँड सर्विसेस प्रा. लि.	17/11/2009
101	13744	हेड्डिको टेक्सटाइल प्रॉडक्ट प्रा.लि.	17/11/2009
102	13746	विमलाब केमिकल्स प्रा.लि.	17/11/2009
103	13749	रिचर्ड इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
104	13759	उदय इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
105	13762	कमानी सर्विसेस प्रा. लि.	17/11/2009
106	13764	सेकवेल चिट फंड प्रा.लि.	17/11/2009
107	13766	शोभा चिट फंड प्रा.लि.	17/11/2009
108	13773	विजय एन्टरप्राइज हाउसिंग इस्टेट प्रा.लि.	17/11/2009
109	13862	कैम्क इंटरमिडिएट प्रा.लि.	17/11/2009
110	14016	इलेक्ट्राइड्स प्रा.लि.	17/11/2009
111	14537	ए.ओ.के.बेटरिज प्रा.लि.	17/11/2009
112	15919	जैनसन रोड लाइन्स प्रा.लि.	17/11/2009
113	15922	जुबली सेविंग्स अँड फाइनेंस प्रा.लि.	17/11/2009
114	15923	त्रिमूर्ति इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
115	15927	सफाला पेन्ट्स अँड केमिकल प्रा.लि.	17/11/2009
116	15934	यशोधन बिल्डर्स प्रा.लि.	17/11/2009
117	16228	आर.एस.वायर्स प्रा.लि.	17/11/2009
118	17716	गेस्टील इंजिनीअर्स कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
119	18772	उदय इन्सूल्टमेन्ट्स अँड केबल्स प्रा.लि.	17/11/2009
120	18774	केयटी एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	17/11/2009

121	18777	उर्वशी फिल्म प्रा.लि.	17/11/2009
122	18778	डिसेंट सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
123	18780	लूना कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
124	18782	ए-एलेरॉन एजन्सीज प्रा. लि.	17/11/2009
125	18788	सीएफ बूलॉन रिफानरी प्रा.लि.	17/11/2009
126	18789	भीमवाला इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
127	18796	पी.एम.फाइनांस अँड कन्सल्टेशन प्रा.लि.	17/11/2009
128	18804	ब्यास एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
129	18814	वैभव शिप सम्स प्रा.लि.	17/11/2009
130	1882	दस्तूर मेडिकल क्लिनिक प्रा.लि.	17/11/2009
131	18841	लीथू केमिकल्स प्रा.लि.	17/11/2009
132	18844	मेरीटेक्स एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
133	18845	ऑटो वर्ल्ड फिलमिंट प्रा.लि.	17/11/2009
134	18850	के.सी.एम. कन्सलटंट्स अँड इंजिनीअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
135	19113	सातारा फोर्जिन्स प्रा.लि.	17/11/2009
136	19219	एशियाटिक टेक्नोलॉजी सर्विसेस अँड कार्गो प्रा.लि.	17/11/2009
137	19285	विश्व एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
138	19288	बिलासराय फाइनांस अँड मैनेजमेंट कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
139	19298	चौगुले मेटैरुजीकल अँड इंजिनीअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
140	19306	मिलन टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
141	19308	इलोकटो फियरिज अँड रेफ्रिजरेटर कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
142	19310	केमडिस केमीकल प्रा.लि.	17/11/2009
143	19325	सुपन कॅन मॅनूफैक्चरर्स अँड रिपेअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
144	19328	वेस्ट एशिया शिपिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
145	19330	शिल्पी लेमिनेट्स प्रा.लि.	17/11/2009
146	19332	प्रेमचंद इंजिनीअर्स वर्क्स प्रा.लि.	17/11/2009
147	19342	फि-कन्सलटंट्स सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
148	19346	प्राजेक्ट कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
149	19351	स्लैवेल पैकजिंग प्रा.लि.	17/11/2009
150	19353	सैफी एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
151	19354	शिवम एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
152	19358	एस.वि.फिल्म प्रा.लि.	17/11/2009
153	19360	प्रिमीयर पेन - प्लास्टिक इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	17/11/2009
154	19362	बाम्बे नेल्स प्रा.लि.	17/11/2009
155	19363	निर्मेग टूल्स प्रा.लि.	17/11/2009
156	19371	दि इंडेक्स सेल्स कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
157	19376	शिपको शिपिंग एजन्सी प्रा.लि.	17/11/2009
158	19382	अमन केमीकल्स प्रा.लि.	17/11/2009
159	19383	सिदमन्न कोटिंग प्रा.लि.	17/11/2009
160	19393	ओस इंजिनीअर्स सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
161	21181	सोलेस टैक्नोलॉजी प्रा.लि.	17/11/2009
162	21186	खन्ना कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
163	21190	शान बिल्डर्स प्रा.लि.	17/11/2009
164	21191	शुगर लैन्ड प्रा.लि.	17/11/2009
165	21204	कानकर्ड प्लास्टिक प्रा.लि.	17/11/2009

166	21215	राम रतनस रोसिन प्रा.लि.	17/11/2009
167	21237	संजीवली टेडर्स प्रा.लि.	17/11/2009
168	21265	की कम्प्यूटर सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
169	21268	इंटरकॉन फार्मास्यूटिकल प्रा.लि.	17/11/2009
170	21286	बाप टैक्ल्स प्रा.लि.	17/11/2009
171	21296	के वाडिया एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	17/11/2009
172	21297	रश्मी बिल्डर्स अँड डेव्लपर्स प्रा.लि.	17/11/2009
173	21308	फिक्सोक्लिप्स प्रा.लि.	17/11/2009
174	22468	प्रत टेडिंग अँड इन्व्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
175	22471	मिलिटेंट सिक्युरीटी ब्युरो प्रा.लि.	17/11/2009
176	22478	ए.आर.मार्केटिंग प्रा.लि.	17/11/2009
177	22479	रतन कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
178	22483	एमएसएस इन्व्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
179	22484	शशी गरवारे इन्व्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
180	22485	आर पी थियेटर्स प्रा.लि.	17/11/2009
181	22498	सिल्वरलाईन एजन्सीज प्रा.लि.	17/11/2009
182	22515	सुहासिनी नर्सरीज प्रा.लि.	17/11/2009
183	22540	रिवर पार्क कनस्ट्रक्शन प्रा.लि.	17/11/2009
184	22552	हेन्द्रे पिकनिक पार्कस प्रा.लि.	17/11/2009
185	22561	सुमिरा डग्ज कन्सलटंसी सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
186	22566	मिट्टाको इंजिनीअरींग प्रा.लि.	17/11/2009
187	22605	मिनतुल्य इन्व्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
188	22609	मूनार फार्मस प्रा.लि.	17/11/2009
189	22611	एमपीटी मॅटोलॉजी एन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.	17/11/2009
190	22613	मेघा कन्सलटंसी एन्ड टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
191	22615	मेकलॉनिक स्विचस प्रा.लि.	17/11/2009
192	22630	राम बिल्डर्स प्रा.लि.	17/11/2009
193	22640	फेन्टास्टिक इनव्हेसमेंट अँड टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
194	22642	फॉरसाइट इनव्हेसमेंट अँड टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
195	22662	अमरनाथ प्रिंट ग्राफिक्स प्रा.लि.	17/11/2009
196	22666	विजुअल्स इलेक्ट्रॉनिक प्रा.लि.	17/11/2009
197	22669	कॅन ऑल कनस्ट्रक्शन प्रा.लि.	17/11/2009
198	22678	साइगॉन इंजिनीअरींग प्रा.लि.	17/11/2009
199	22680	फर्नस टाइम इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	17/11/2009
200	22699	यूनायटेड लाईव्हेस्टॉक शिपिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
201	22715	हर्ट इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
202	22716	क्यूडपी मैन्युफैक्चरिंग इंजिनीअर्स अँड कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
203	22737	एक्सपर्ट विलनिंग अँड सेप-टी इक्वुपमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
204	25226	यूनी मार्केटियर्स प्रा.लि.	17/11/2009
205	25236	सूरज फोटोटाइपसेटर्स प्रा.लि.	17/11/2009
206	25240	डी.सी.सेठ इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
207	25244	खेतानी बिल्डर्स प्रा.लि.	17/11/2009
208	25248	विशाल स्पीनर्स प्रा.लि.	17/11/2009
209	25255	वे.डी.एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
210	25259	नीलगीरी इनव्हेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009

211	25261	व्ही.एस. इजिनीअरींग अँन्ड कन्सलटंस प्रा.लि.	17/11/2009
212	25262	रश्मी इंपेक्स प्रा.लि.	17/11/2009
213	25274	चन्द्रकांत सन्स इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
214	25292	गोविन्दजी अँन्ड सन्स इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
215	25294	फाउंटनहेड हाउसिंग इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
216	25298	पी.आर.पब्लिसिटी एजन्सी प्रा.लि.	17/11/2009
217	25301	ग्रीन व्हेली हाउसिंग प्रा.लि.	17/11/2009
218	25404	ग्लेसको टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
219	25427	ऑटप-लो वाल्वस प्रा.लि.	17/11/2009
220	25444	मास्टर मरीन ओवरसीज एजन्सीज प्रा.लि.	17/11/2009
221	25450	श्रजबीर फिल्मस प्रा.लि.	17/11/2009
222	25468	कनस्ट्रक् इजिनीअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
223	25472	मेती शिपिंग प्रा.लि.	17/11/2009
224	25479	गोल्डफिल्ड मर्कटाइल कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
225	25483	सायनोमेड डग्ज अँन्ड केमिकल्स प्रा.लि.	17/11/2009
226	25493	अँसिम इनव्हेसमेंट प्रा. लि	17/11/2009
227	25542	आयआरसी कैरियअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
228	25546	बेलार्ड इस्टेट प्रोपर्टीज प्रा.लि.	17/11/2009
229	25556	गेम जनरल इक्युपमेंट मार्केटिंग प्रा.लि.	17/11/2009
230	25570	सर्वे इनव्हेसमेंट अँन्ड टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
231	25571	एरिका एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
232	25583	वाबर अँडव्हाइडिंग अँन्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	17/11/2009
233	25589	शिला होल्डींग प्रा.लि.	17/11/2009
234	25591	शिशम होल्डींग प्रा.लि.	17/11/2009
235	25592	सहयाद्री होल्डींग प्रा.लि.	17/11/2009
236	25593	शशिकांत होल्डींग प्रा.लि.	17/11/2009
237	25613	हमीर कल्याणी होल्डींग प्रा.लि.	17/11/2009
238	25618	श्री शुभ होल्डींग प्रा.लि.	17/11/2009
239	25633	बीम मार्केटिंग प्रा.लि.	17/11/2009
240	25636	सेव एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
241	25649	देसबिल्ड इनवाइरनमेन्ट इजिनीअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
242	25651	शिलटन शिराज एण्ड इम्मन्ड टूर्स एण्ड टेक्स् प्रा.लि.	17/11/2009
243	25773	टॉप -ओ-टेक्स एण्ड फाइनेन्स कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
244	25791	जी पी टेडर्स टेक्नो एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
245	25795	शहा अँग्रो इन्डसट्रियल पंप्स प्रा.लि.	17/11/2009
246	25798	स्नेह शक्ति फिल्म प्रा.लि.	17/11/2009
247	25806	म्हाराजा प्लास्टिक्स प्रा.लि.	17/11/2009
248	25807	शेफाली होल्डींग्स एण्ड एजन्सीज प्रा.लि.	17/11/2009
249	25811	लक्ष्मी गिन्नीडा एण्ड प्रेसिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
250	25824	बेल्ली टी कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
251	25826	मोहम्मदी एक्सपोर्ट इंडिया। प्रा.लि.	17/11/2009
252	25830	यूरोकॉन प्लास्टिक प्रा.लि.	17/11/2009
253	25834	ओअँसिस. कन्सलटंसी प्रा.लि.	17/11/2009
254	26348	एलाईट फार्मस एण्ड इस्टेट कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
255	27760	स्पेरो ऑटो इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	17/11/2009

256	28911	जय बालगोपाल होल्डींग प्रा.लि.	17/11/2009
257	29323	गणेश ऑटो इलेक्ट्रिक प्रा.लि.	17/11/2009
258	29490	कोशा सिस्टम एण्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	17/11/2009
259	29969	हरिष होटल्स एण्ड रेस्टोरन्ट प्रा.लि.	17/11/2009
260	30138	बरोदा सिने इंटरप्राइजेस प्रा.लि.	17/11/2009
261	30140	बिसन्स इंजिनिअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
262	30141	पीआरएसए फाईनैनाशियल एण्ड टेकनॉलाजी कन्सलटंसी प्रा.लि.	17/11/2009
263	30147	कन्सोरटियम कन्सलटंस् इंजिनिअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
264	30155	मैफेल इम्पेक्स प्रा.लि.	17/11/2009
265	30156	हिना टेक्लस प्रा.लि.	17/11/2009
266	30192	परफेक्ट प्रोजेक्ट साइम्यूलेशन्स प्रा.लि.	17/11/2009
267	30197	रहकारी केमिकल्स प्रा.लि.	17/11/2009
268	30200	दूर्गा कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
269	30204	आदर्श हॉटेल कनस्ट्रक्शन डेव्लपमेंट एण्ड इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
270	30209	असेट फार्मस्यूटिकल प्रा.लि.	17/11/2009
271	30211	रितू ऑडियो विज्युलस प्रा.लि.	17/11/2009
272	30218	डायमंड कार्गो कॅरियर्स प्रा.लि.	17/11/2009
273	30223	हिना ऑटोमोबाइलस प्रा.लि.	17/11/2009
274	30227	शांति टेक्सटाईल गार्मेंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
275	30232	व्हीटीसी सोलर सिस्टम प्रा.लि.	17/11/2009
276	30238	पवलोला टेडींग एण्ड इनव्हेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
277	30240	योगी सिंथेटिक प्रा.लि.	17/11/2009
278	30244	रुपय डाईज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि.	17/11/2009
279	30246	केटक झवेरी इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
280	30256	टवनि केमिकल्स इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	17/11/2009
281	30257	सुरेखा फाईनान्स प्रा.लि.	17/11/2009
282	30264	कानकोर्ड विडियो प्रा.लि.	17/11/2009
283	30271	हाय-फॉम प्रा.लि.	17/11/2009
284	30273	हैपी गार्मेंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
285	32771	जेनिक्स कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
286	33044	हाईवे टेक्लस प्रा.लि.	17/11/2009
287	33085	मेटरीनी लेबॉरेटरीज प्रा.लि.	17/11/2009
288	33106	संजयकुमार खुशालचंद इंजिनिअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
289	33144	रेन्बो रिसोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
290	33182	सेंच्युरी फार्मस प्रा.लि.	17/11/2009
291	33185	इनोवेटिव रबटेक इंडिया प्रा.लि.	17/11/2009
292	33186	अवस्थी इनव्हेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
293	33235	हिमालया कन्सलटंसी प्रा.लि.	17/11/2009
294	33302	शिवार केमको एक्सपोर्ट एण्ड इंपोर्ट्स प्रा.लि.	17/11/2009
295	33308	शिशिर पेपर एण्ड अलाईड प्रा.लि.	17/11/2009
296	33311	काला स्टिल एण्ड इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	17/11/2009
297	33313	सन्मित्रा हॉटेल प्रा.लि.	17/11/2009
298	33341	श्रीक्रीमोजेन डाई स्टफ्स प्रा.लि.	17/11/2009
299	33356	साउण्ड टेकनिकल सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
300	33362	कुची आरामपुरे फुड प्रा.लि.	17/11/2009

301	33373	ग्रे हाउण्ड इस्टेट एण्ड फाईनैसस प्रा.लि.	17/11/2009
302	33377	भटनागर ट्रेड एक्सीबीशन प्रा.लि.	17/11/2009
303	34229	बाम्बे फेरो फेब्रिक प्रा.लि.	17/11/2009
304	35013	फेलपिन इनव्हेसमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	17/11/2009
305	37865	स्टेनली अटो इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	17/11/2009
306	39370	सोना प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग प्रा.लि.	17/11/2009
307	39482	कॅनरा इलेक्ट्रिक वर्क्स प्रा.लि.	17/11/2009
308	40982	कुंदन एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
309	41935	आम्रपाली हॉटेल्स प्रा.लि.	17/11/2009
310	41942	जयलक्ष्मी एजंसी प्रा.लि.	17/11/2009
311	4197	एनटीवी होल्डींग्स प्रा.लि.	17/11/2009
312	41948	स्टील काफ्ट फर्निचर इंडिया प्रा.लि.	17/11/2009
313	41966	एसजी कन्सलटंस प्रा.लि.	17/11/2009
314	41986	टदामास जेम्स प्रा.लि.	17/11/2009
315	41994	रुवन फार्मस प्रा.लि.	17/11/2009
316	41997	मनिष ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
317	42006	आयर्निक मायक्रोप्रोसेसर्स इ। प्रा.लि.	17/11/2009
318	43216	कापरिया फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	17/11/2009
319	43219	मिडास फन्ड मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
320	51608	बिजराउलिया एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	17/11/2009
321	51990	सिमको एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
322	51997	श्री एअर लैंड कॅरियर्स प्रा.लि.	17/11/2009
323	52010	फ्रान्स फिल्ड इंजिनिअर्स प्रा.लि.	17/11/2009
324	52015	ब्लू-चिप वेअरहाउसींग प्रा.लि.	17/11/2009
325	52021	जेड्स शिपिंग प्रा.लि.	17/11/2009
326	52024	मनाली इम्पेक्स प्रा.लि.	17/11/2009
327	52032	ब्लू चिप अटो कन्सलटंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
328	52035	मिधार इन्व्हेसमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	17/11/2009
329	52042	कैलाशवर फिल्मस् प्रा.लि.	17/11/2009
330	52050	नयनशिल फाईनैन्स एण्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	17/11/2009
331	52058	इनोविजन मिडिया प्रा.लि.	17/11/2009
332	52071	बैजो टैक्स् प्रा.लि.	17/11/2009
333	52082	विशाखा इन्स प्रा.लि.	17/11/2009
334	52105	सक्सेस मैनेजमेंट कन्सलटंसी प्रा.लि.	17/11/2009
335	52106	स्मैय लेझर प्रा.लि.	17/11/2009
336	52111	हैपी फाईनैन्स प्रा.लि.	17/11/2009
337	52112	विमया इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
338	52113	पुरुलिया एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
339	52118	विश्वकर्मा सॉफ्टवेअर प्रा.लि.	17/11/2009
340	52123	व्हाइस ऑटोमोटीव कंपोनेंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
341	52129	स्मॅश केमिकल्स प्रा.लि.	17/11/2009
342	52136	कॅनम हेल्थ केअर प्रा.लि.	17/11/2009
343	52137	अस्वम इनफार्मेशन मैनेजमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
344	52154	जनग छेडा डेव्लपर्स प्रा.लि.	17/11/2009
345	52159	टीटीटी टाईडवाटर प्रा.लि.	17/11/2009

346	52160	टी.एस.एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेड प्रा.लि.	17/11/2009
347	52164	खातिब इनवेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	17/11/2009
348	52166	नवचेतन रीअल इस्टेट प्रा.लि.	17/11/2009
349	52170	नाईस राईस प्रोड्यूस प्रा.लि.	17/11/2009
350	52175	कवा इलेक्ट्रानिक्स प्रा.लि.	17/11/2009
351	52185	प्रो.गाजिस एज्युकेशनल अकॅडमी प्रा.लि.	17/11/2009
352	52186	हैडीमैन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
353	52188	जला डेव्हलपर्स प्रा.लि.	17/11/2009
354	52194	ऑरेन्ज सीटी अॅडव्हटाइजिंग प्रा.लि.	17/11/2009
355	52201	कॉम्पको इंजिनियरिंग प्रा.लि.	17/11/2009
356	52204	इनक्वैरोडीप बेअर प्रा.लि.	17/11/2009
357	52205	कंचन झिपर्स प्रा.लि.	17/11/2009
358	52206	प्रोनटो टैवल्स इंडिया। प्रा.लि.	17/11/2009
359	52231	मार्शल कोटर्स इंडिया। प्रा.लि.	17/11/2009
360	52237	अभियान फाईनैन्स प्रा.लि.	17/11/2009
361	52245	जयहिंद हॉटेल्स एण्ड रेस्टोरंट प्रा.लि.	17/11/2009
362	52249	छात्रिया सेक्युरिटी एण्ड मैटनंस सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
363	52254	ब्लू चेरी कम्यूनिकेशनस् प्रा.लि.	17/11/2009
364	52280	झुबीम एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	17/11/2009
365	52301	रोमानो अॅडव्हटाइजिंग प्रा.लि.	17/11/2009
366	52309	अयुश मार्केटिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
367	52312	फाटक डिजाइनर एण्ड प्रा.लि.	17/11/2009
368	52313	अग्निहोत्री हायरपरचेज एण्ड फाइनैन्स प्रा.लि.	17/11/2009
369	52321	चिराग इम्पेक्स प्रा.लि.	17/11/2009
370	52332	विकी मूविज प्रा.लि.	17/11/2009
371	52340	रेणूका डेअरी प्रा.लि.	17/11/2009
372	52360	उर्जिता इस्टेट प्रा.लि.	17/11/2009
373	52370	श्रीजी लदर्स एण्ड इम्पेक्स प्रा.लि.	17/11/2009
374	52376	लाल बिल्डींग भाडूत नंदल प्रा.लि.	17/11/2009
375	52387	माईको एक्सप्रेस कंप्यूटर प्रा.लि.	17/11/2009
376	52388	टलिबाग हॉलीडे होम्स प्रा.लि.	17/11/2009
377	52402	ब्लूविंग्स शिपिंग एण्ड फारवर्डिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
378	52410	प्राग लीजिंग एण्ड फाइनैन्शियल सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
379	52413	राजलक्ष्मी लीजिंग प्रा.लि.	17/11/2009
380	52425	लाइनरॉन इम्पेक्स प्रा.लि.	17/11/2009
381	52442	डाक्स एक्सपो प्रा.लि.	17/11/2009
382	52446	एकराज मेकेनिकल इंजीनियर्स प्रा.लि.	17/11/2009
383	52451	विल्ट शांत कन्सल्टेशन प्रा.लि.	17/11/2009
384	52452	एनी अनु डेव्हलपर्स प्रा.लि.	17/11/2009
385	52453	एक्सकॅलिबर कन्सोलिडेटेड कॅपीटल ट्रस्ट प्रा.लि.	17/11/2009
386	52458	ऑपल हॉलडिंग प्रा.लि.	17/11/2009
387	52470	श्राजदान इम्पेक्स प्रा.लि.	17/11/2009
388	52493	श्री नाथ कन्सलटंसी एण्ड सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
389	52495	टंबेकर एसोसिएट्स आर्किटेक प्रा.लि.	17/11/2009
390	52498	रीना इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	17/11/2009

391	52509	ठनामदार टेडिंग एण्ड इनव्हेसमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
392	52513	इनोवेटिव लैण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि.	17/11/2009
393	52517	लोजेस्टेटीक्स सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
394	52524	ग्रेस नाइट्स प्रा.लि.	17/11/2009
395	52535	ऑनलाइन इमेजसेटर्स प्रा.लि.	17/11/2009
396	52549	कल्पतरु गृह वीट्ट विनियोग प्रा.लि.	17/11/2009
397	52553	तक मेटल टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
398	52559	शुभ यमुना डेव्हलमेंट एण्ड लिझींग प्रा.लि.	17/11/2009
399	52569	लेकस कम्यूटर्स प्रा.लि.	17/11/2009
400	52570	गाहलोट कन्सट्रक्शन्स कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
401	52586	मार्डन शिपराट प्रा.लि.	17/11/2009
402	52619	रेनबो सिने सर्कल प्रा.लि.	17/11/2009
403	52639	कुशिता इनव्हेसमेंट एण्ड फाईनान्स प्रा.लि.	17/11/2009
404	52640	डिंपल डेव्हलपर्स प्रा.लि.	17/11/2009
405	52644	स्टेटस रिअल इस्टेट्स प्रा.लि.	17/11/2009
406	52652	सुनिता इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	17/11/2009
407	52659	क्लेथॉर्न विलटन सर्वेयर्स प्रा.लि.	17/11/2009
408	52671	प्रगीरा फोटो प्रा.लि.	17/11/2009
409	52682	खजाना होल्डिंग प्रा.लि.	17/11/2009
410	52708	टेजर इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
411	52714	गर्लिक डिजाइनिंग एण्ड कन्सलटंसी प्रा.लि.	17/11/2009
412	52734	सुभिका इंजीनियरिंग प्रा.लि.	17/11/2009
413	52743	हिचलीबर कंप्यूटर एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
414	52746	सबर डेव्हलपर्स प्रा.लि.	17/11/2009
415	52750	एम.डी.पेटिट इस्टेट प्रा.लि.	17/11/2009
416	52757	ऑलम्पिक बिल्डर्स प्रा.लि.	17/11/2009
417	52765	इमरफोर्ट एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
418	52766	कपिल मार्केटिंग प्रा.लि.	17/11/2009
419	52767	सेनम वेयर हाउसिंग एण्ड कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
420	52769	शतयू हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा.लि.	17/11/2009
421	52770	कोमोटेक्स एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
422	52772	कुणाल मोटर्स प्रा.लि.	17/11/2009
423	52773	सिनियर मार्केटिंग प्रा.लि.	17/11/2009
424	52778	ऑनलाइन सिस्टम एण्ड पेरिफेरल्स प्रा.लि.	17/11/2009
425	52782	फिरेटी शूज प्रा.लि.	17/11/2009
426	52794	वसुधा इनवेस्टमेंट एण्ड लिझींग प्रा.लि.	17/11/2009
427	52815	श्रीवेली इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
428	52882	विजामी टेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
429	52905	विकराज ऑटोमोबाइल्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
430	52928	साक साफ्टवेअर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
431	53098	चौगुले वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
432	53878	प्रेशियस पालिमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
433	53969	एक्सक्लुसिव किशनस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
434	53973	बाल गोपाल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
435	53980	शांति विजय अपैरल प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009

436	53983	बोदाद कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
437	53989	भाग्यवंती बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
438	53990	रोमोना इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
439	53998	आशा क्लिअरिंग एण्ड फार्वर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
440	54000	रचना इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
441	54029	टेक मार्किंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
442	54042	मूनसन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
443	54052	मॉल इनवेस्टमेंट्स & होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
444	54055	अवर विले फूट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
445	54081	ऑमेगा ओवरसिज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
446	54089	एरियन वायर एण्ड वायर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
447	54095	निहाल होल्डींग्स एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
448	54096	सामवेल होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
449	54116	प्रतिक हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
450	54148	प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
451	54150	वेल वॉन रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
452	54155	एनिकार कार्गो एण्ड टैंकर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
453	54157	स्विफ्ट ऑडलाट्स एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सल्टन्ट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
454	54167	साई सरकॉइट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
455	54169	प्रसाद फाइट्स केरिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
456	54170	बगाडे इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
457	54177	वलकन जेम्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
458	54158	हिकारी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
459	54205	सतीश फेरो एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
460	54208	वकास बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
461	54214	सिल्वर स्टीक कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
462	54221	दिलकम हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
463	54223	सिद्धा एडवर्टाइसिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
464	54418	रमण टार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
465	55905	पपाज इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
466	57082	टिपलोटैक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
467	57436	एफिमेक्स इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
468	57787	एडसॉट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
469	57857	श्राज डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
470	58081	चल इनवेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
471	58511	रिसोर्स लिजिंग & फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
472	58514	मधुहिरा सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
473	58520	ग्लो फिक्सचर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
474	58525	तेजु होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
475	58720	डा.गगनचन्द्र भारती हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
476	58742	एरटेल टेलिमेटिक प्रा.लि.	17/11/2009
477	58758	मैन्डा एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	17/11/2009
478	58759	बैतुल उबेद फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
479	58764	ग्रेस लैण्ड मॉटल्स प्रा.लि.	17/11/2009
480	58771	जयसन्स कम्युनिकेशन्स प्रा.लि.	17/11/2009

481	58776	फलक टैक्ल्स एण्ड ट्रेड प्रा.लि.	17/11/2009
482	58788	मनिष रोडवेज प्रा.लि.	17/11/2009
483	58814	रेडिएण्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
484	58815	इनफिनिटि एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
485	58819	टैफलगर हॉटेल्स प्रा.लि.	17/11/2009
486	58830	कुनासो ट्रेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
487	58853	वरानी फाइनेन्स प्रा.लि.	17/11/2009
488	58856	मार्क्स पेट्रो मर्कनटाइल प्रा.लि.	17/11/2009
489	58861	डबल -एम लिजिंग एण्ड फाइनेन्स प्रा.लि.	17/11/2009
490	58880	सोदेव पीर फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
491	58884	धर्मराज सेल्स प्रा.लि.	17/11/2009
492	58888	शैलेशकुमार एण्ड ब्रदर्स प्रा.लि.	17/11/2009
493	58901	आर.जे.मेहता प्रा.लि.	17/11/2009
494	58904	स्वताज ऐसेट्स एण्ड कैपिटल मैनेजमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
495	58919	निबल कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रा.लि.	17/11/2009
496	58936	गेलेक्सी फूड एक्सपोर्ट प्रा.लि.	17/11/2009
497	58941	ब्लैक रोज गारमेंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
498	58949	सुभाष हेल्थ सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
499	58955	शंडोक इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स प्रा.लि.	17/11/2009
500	58976	अवस्थी डिटेक्टिव एण्ड सूक्युरिटी सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
501	58978	तसमिन ट्रेडिंग प्रा.लि.	17/11/2009
502	59022	टस रिकवरी सर्विस प्रा.लि.	17/11/2009
503	59157	कोयंडे वायरमेंक प्रा.लि.	17/11/2009
504	60046	कनाज लिजिंग एण्ड फाइनेन्स प्रा.लि.	17/11/2009
505	60148	मेतीलाल स्वीट्स एण्ड कासमैटिक्स प्रा.लि.	17/11/2009
506	61478	प्रेमसन्स कन्ट्रोल केबल्स प्रा.लि.	17/11/2009
507	62195	सिगमा कृषि-रसायन प्रा.लि.	17/11/2009
508	62388	देसाई सूक्युरिटीज एण्ड फाइनेन्स प्रा.लि.	17/11/2009
509	62393	सेनिक फ्लाइट सर्विसेस प्रा.लि.	17/11/2009
510	62395	स्टोइक कन्सलटेंट्स प्रा.लि.	17/11/2009
511	62399	रघुवंशी ट्रेडिंग एण्ड कंपनी इंडिया प्रा.लि.	17/11/2009
512	62406	मेविनाज इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	17/11/2009
513	62413	डुमोह एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	17/11/2009
514	62419	द्वारसन्स प्रापर्टीज प्रा.लि.	17/11/2009
515	62421	एमिकॉम ट्रेडिंग एण्ड होल्डींग्स प्रा.लि.	17/11/2009
516	62431	जेसंग इम्पेक्स प्रा.लि.	17/11/2009
517	62457	यशोधन लिजिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
518	62524	लाभसन्स मेटल वायर्स प्रा.लि.	17/11/2009
519	62837	लारेल वायर इन्वेलिंग कंपनी प्रा.लि.	17/11/2009
520	63300	मयंक केबल इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.	17/11/2009
521	63320	महाराष्ट्र कन्डक्टर्स एण्ड वायर्स प्रा.लि.	17/11/2009
522	63487	रुचिरा वायरपोडक्ट्स प्रा.लि.	17/11/2009
523	65905	मेहता वाल्व एण्ड एक्सेसरिज प्रा.लि.	17/11/2009
524	67646	लोटस कम्प्यूटर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
525	68080	सनदेव वायरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009

526	68515	आकांक्षा वायर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
527	68899	चरनिंग मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
528	68900	क्लासिक इंजिनियर्स एण्ड कान्टेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
529	68902	पटेल इलेक्ट्रो कम्प्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
530	68913	आदिनाथ फाइनैन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
531	68918	निनाद होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
532	68922	यनसारा इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
533	68926	अल्पा वुड -पैक प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
534	68932	अनधा फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
535	68939	विनी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
536	68952	बंकुरा इनवेस्टमेंट एण्ड टेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
537	68956	प्राम्पट प्रागरेस फाइनैन्स एण्ड इनवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
538	68960	मस्टर्ड लिजिंग & फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
539	68965	कौसर डेव्हलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
540	68969	गिरिष एण्ड मनीष इम्पोर्ट्स & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
541	68986	लिलि लिजिंग & फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
542	68989	रुबेन इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
543	69003	वन्दर होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
544	69004	बकार्डी इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
545	69012	राजधानी रिसॉर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
546	69896	अगरवाल इन्सुलेक्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
547	71444	गोल्ड स्टार इन्टरकॉम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
548	71799	योगी क्लिपको प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
549	71801	न्युमैंग एस सी बी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
550	71807	बेनी फाइनैन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
551	71810	मेनन लैण्ड डेव्हलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
552	71856	मृदुल टेड & इनवेस्टो प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
553	71866	सीआरसी मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
554	71889	बिनाका क्रेडिट&कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
555	71890	आर्चदीप इनवेस्टमेंट्स& फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
556	71897	एड्डी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
557	71900	वॉकण पॉवर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
558	71902	कुलकर्णीस शेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
559	71940	अमितसचिन लिजफिन प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
560	71951	भरतश्री कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
561	71960	स्टोन टेबल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
562	71965	निलाचल शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
563	71973	मा फिनलिज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
564	71995	रोनी होल्डींग्स&प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
565	71996	बदलापुर प्ला-टेक इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
566	72001	टिम्स डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
567	72011	ओरिक्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
568	72012	कृतिका प्रॉपर्टीस & डेव्हलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
569	72021	कॉमेट कॉयर & प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009

570	72031	आशापुरा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
571	72034	नवलगढ टेडिंग&फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
572	72038	पुष्प पत्र फाइनेन्स & टेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
573	72053	एसकेय एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
574	72066	महाराष्ट्र रिफ्रेक्टरीज & कंस्टेबल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
575	72069	अनसुप्रा फाइनेन्स & इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
576	72070	वरटेक्स ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
577	72095	लन कम्प्युटर कर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
578	72105	हॉटेल चिंतामणि प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
579	72108	सिंघल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
580	72133	अर्लि बर्ड लिजिंग & फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
581	72144	ग्रास्प फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
582	72147	फेगडु इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
583	72150	केसवन फिस्कल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
584	72155	कपासी एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
585	72158	ऑसटीच एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
586	72176	वाघवानी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
587	72180	सार्क विलअरिंग एण्ड फार्वर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
588	72219	हारमनी इलेक्ट्रानिक्स-डिसप्ले मिडिया प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
589	72253	कर-कर मेटल टेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
590	72264	ए-वन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
591	72273	चंदन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
592	72298	दिवेश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
593	72299	राहुल अय्यर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
594	72317	हर्षिता टेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
595	72327	आइवा लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
596	72343	इन्टरनेशनल हॉलीडे एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
597	72349	मेहरॉक्स एडयूकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
598	72360	मंजुल टेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
599	72376	गेलियन इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
600	72377	स्टर्लिंग बुलियन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
601	72382	अमवीर कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
602	72388	पार्श्वनाथ यार्न एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
603	72395	जापलाइन फाइनेन्स - लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
604	72396	केरोपूना फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
605	72401	एडीम फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
606	72404	हास्प इनवेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
607	72410	पार्थ एअर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
608	72415	पिनल फाइनेन्स - इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
609	72426	सविता टेडिंग एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
610	72429	अक्षय एरोमॉडल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
611	76598	टेकवैल रेडियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
612	77081	सन लैब-लाइन इनस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
613	78496	प्री-स्टैस वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009

614	79090	सुदर्शन डोर्स & बोर्डस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
615	82210	अलका स्टील वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
616	82700	परशुराम वायर & प्लास्टीक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
617	83270	नागपूर वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
618	83561	फाइब्रोनिक केबलिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
619	85414	सिल्वर टेक वायर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
620	86134	वाइडिंग कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
621	87846	अल्फा इन्सुलेशनस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
622	88029	हिमालय सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
623	88351	इंडो हन सेंग इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
624	92514	केटि वाया प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
625	92860	भावल इन्सुलेशनस & इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
626	113146	योगेश्वर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
627	120996	मानसरोवर वाटर प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
628	134295	एटलस अलकोहल्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
629	134652	श्री सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
630	135213	माल्ट एण्ड हाप्स ब्रिवरिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
631	135783	मोहन वाइन मर्चन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
632	135861	कनवर्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
633	136198	तन्वी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	17/11/2009
634	138330	इंडो रॉयल डिस्टीलरी एण्ड वाइनरी प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
635	139455	एचडी ब्रिवरिजस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
636	140188	कमल सन्स बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
637	141018	एचआर बिबरेजस प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
638	141326	डीएन्स वाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
639	147692	टाइस्टार डिस्टीलरीज प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009
640	148322	महावीर लोकेश इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	17/11/2009

राजेन्द्र सिंह मीना
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामलें :

मुंबई, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

संख्या—आरओसी/560।5।/2009— कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 15। की उप-धारा 15। के अनुसरण में एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज दिनांक को रजिस्टर में काट दिये गये । तथा उक्त कम्पनियों विघटित कर दी गई है ।

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	कम्पनी का नाम	धारा 5605के अंतर्गत
1	4348	शो टुस्ट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
2	5077	टिकी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
3	5079	इंडिया कॉटन सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
4	5173	ए बी डी कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
5	5285	ए.एच.भिवंडीवाला&कं० (बाम्बे) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
6	5287	मार्डेल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
7	5291	इण्डस्ट्रियल & रिसर्च इस्टिड्युट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
8	5317	लक्ष्मी मिल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
9	5328	श्री जलेश्वर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
10	5376	टुस्टइन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
11	5408	वेस्टर्न सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
12	5430	नयर अगरवाल प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
13	5490	सिरूर आर्ट प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
14	5512	बाम्बे वॉच डिलर्स कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
15	5526	कुतुब पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
16	5553	एडवर्टाइसिंग फिल्मस आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
17	5640	फार इस्टर्न सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
18	6047	टी यू पटेल &सन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
19	6074	रुसी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
20	6079	पारेख इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
21	12472	सिंथेटिक गैस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
22	13412	ग्रोरिच चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
23	13415	श्री जगतप्रिया सेविंग फंड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
24	13439	जीवन ज्योत फाईन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
25	13458	नीलकमल सेविंग्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
26	13461	दाम्बे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
27	13462	वेलु फार्मा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
28	13456	सैलेश प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
29	13474	नैनसी फर्निचर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
30	13483	इंडियन टेडिंग कम्पनी (बाम्बे) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
31	13492	सांताकुज चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009

32	13496	लिटगिज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
33	13506	यूनिक जेम्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
34	13507	बावाजीर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
35	13513	कामनर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
36	13547	पाटील इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
37	13558	बिलिमोरिया कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
38	13561	जीवन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
39	13562	इ.एम.हरी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
40	13569	वाइट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
41	13572	चिट फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
42	13580	जनसि बेनिफिट चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
43	13586	कानजी जादवजी (शिपिंग) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
44	13587	कानजी जादवजी (ट्रैडिंग) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
45	13590	अस्थिका चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
46	13594	हेमंत पेपरमिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
47	13608	मंजु चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
48	13612	पारस चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
49	13628	कपाडिया कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
50	13637	एक्सल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
51	13654	लैफन्नस(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
52	15778	औरंगाबाद स्टील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
53	15800	जन जागृति प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
54	16654	एम गुणवंतराय प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
55	16814	डब्ल्यू डी इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
56	17618	प्लाप इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
57	17702	स्टेन्डर्ड एग्जिस्टिन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
58	17703	जासमिन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
59	17713	किएटिव टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
60	17714	अरिहन्त फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
61	17717	दान्सइस्टर्न लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
62	17718	बैण्डडवेल ट्रुक्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
63	17719	मोनार्क लेमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
64	17725	ज्योति सेविंग्स एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
65	17727	जय फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
66	17732	एम्प्लान रबर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
67	17733	सोनल डेयरिज एण्ड एगो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
68	17742	सिल्वर लाइनिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
69	17748	एपेक्स जिओलॉजिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
70	17751	माणिक टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
71	17769	फरान केमिकल्स एण्ड फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
72	17771	सिस्टार चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
73	17777	बेस्ट टूल एण्ड हार्डवेयर एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
74	17783	ललवाणी बिल्डिंग प्रिमाइसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
75	17791	मनोहर कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
76	17792	डमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
77	17809	सेयनारबर प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
78	17812	स्कायपेक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
79	17818	नार्थ साउथ हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009

80	17828	मानकॉन्स कन्सलटंट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
81	17829	एम.बी.अडवाणी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
82	17830	रंजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
83	17835	श्री गोपाल सेविंग्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
84	17841	एस एस एस फाइनेन्स एण्ड इन्व्हेस्टीयल मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
85	17844	पी एस जी कन्सलटंसी एण्ड एंजनीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
86	17848	हिमेश फार्मा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
87	17851	लेको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
88	17856	एक्सपो मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
89	17858	आराधना कन्सल्टेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
90	17859	जयराजभाँय इनवेस्टमेंट्स & टेडींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
91	17860	वास्तु बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
92	18057	यूनिक सेक्युरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
93	18065	न्यू बेसिक केमिकल्स & इंटरमिडिएट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
94	18067	सुरेखा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
95	18070	मिरांडा एग्रो इण्डस्ट्रीज रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
96	18071	टनिल पेपर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
97	18076	अपाचे इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
98	18092	अजंता कंपैसिटर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
99	18098	हर्ष एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
100	18102	डपाध्याय एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
101	19895	रॉयल फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
102	20010	डिप्पीज सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
103	20016	सुरेन्द्र साइनेटिफिक रिसर्च डेक्लपमेंट फाउन्डेशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
104	20020	योगक्षेम फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
105	20031	जल दूत शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
106	20040	टैक्ल जेम प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
107	20048	एस.जी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
108	20093	शाह एण्ड पडवल कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
109	20114	सी एच. गांधी कन्सलटिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
110	20920	स्मांतर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
111	20942	देसा मरीन सर्विसेस & केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
112	20974	काउन स्केल डाइस एण्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
113	20985	जे डी इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
114	20986	नाथन एसोसिएट्स (एक्सपोर्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
115	20998	ऑटोमेटिक डाटा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
116	21001	विला हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
117	21021	बैंकर्स एडवर्टाइजिंग & मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
118	21032	श्रीमल (एक्सपोर्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
119	21193	श्री निवास ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
120	21210	वर्धमान क्वाटिव पब्लिसिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
121	21216	विश्वकर्म बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
122	21222	फ्रेण्ड्स मूविज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
123	21238	कांता पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
124	21241	रत्ना हार्टी स्टोन इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
125	21254	गिरना फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
126	21271	चैका कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
127	21281	तेज फाइब्रोफार्मस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009

128	21292	सर्फेस ऑयल कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
129	22373	फोनिक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
130	22896	नैचरल फोम प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
131	23350	डुकेम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
132	23369	ग्रेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
133	23409	ग्रेहाउण्ड टान्सवस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
134	23417	एरिडम इस्टेट्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
135	23433	आफिशोर ऑनसोर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
136	23448	चैम्पियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
137	23454	बेटर लिविंग हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
138	23455	केअर्टझर्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
139	23467	मर्चेंट मनेजमेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
140	23475	इलेक्ट्रो-मैटेलिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
141	23479	बाम्बे टैंक लारी आपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
142	23482	लायन्स हार्ट इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
143	23485	टीटीजी कन्सलटन्ट्स बिजनेस कम्बाइन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
144	23496	एपीएम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
145	23501	मेटेलायस फेब्रिकेटर्स, इंडिया द्द; इंडिया द्द	18/11/2009
146	23535	पेन्थर इंजीनियर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
147	23538	म्युचियल मेडिकल रिसर्च सोसायटी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
148	23543	इनवेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
149	25047	एस डी एडवर्टाइजर्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
150	25050	एलकेएस डेडिंग एण्ड एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
151	25051	रुशद पटेल इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
152	25056	डी के एस डेडिंग एण्ड एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
153	25064	मेट्रोपोलिटन स्टकचरलस प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
154	25065	रीटा फाइनेन्स इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
155	25206	न्यूवेन इनवेस्टमेंट एण्ड डेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
156	25207	सिरियन डेड एण्ड इनवेस्टमेंट एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
157	25208	अजमेरा सिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
158	25211	सिगमा कन्सल्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
159	25214	सेहम हार्टेल प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
160	25221	कोपा फोटोटाइप सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
161	25323	एनआयबीआर मेटल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
162	25332	एम गोवर्धनदास डेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
163	25347	ट्वेन्टीथ सेच्युरी टेक्नल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
164	25353	मास्टर कि चार्ज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
165	25358	जयंतीलाल डेडिंग & इनवेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
166	25359	एस पी हिंदुजा इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
167	25374	केकी कोतवाल इनवेस्टमेंट कं० प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
168	25376	प्रेमलोक एड्युकेशनल सोशल वेल्फयर ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
169	25387	पिलको वेअरहाउजिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
170	25390	कपूर कार्पेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
171	25400	रेलैण्ड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
172	25408	कॉची कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
173	25419	ग्रीन गार्डन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
174	25425	श्री इन्द्रप्रस्थ हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी ट	18/11/2009
175	25445	स्कैन कन्ट्रोल डण्डसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009

176	25446	शिवस्तावा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
177	25501	राले-टेक्स इनग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
178	25517	टीनीटी टेक्नोमिक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
179	25521	विनांत इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
180	25522	वेलर इनवेस्टमेंट्स & फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
181	25525	सुधाकोशल इनवेस्टमेंट्स कं० प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
182	25527	सुरेशचंद्र अशोक कुमार प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
183	25528	फाउन्टेनहेड एक्सपोर्ट्स सइन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
184	25530	ए-1 हार्टल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
185	25531	समंत इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
186	25538	मेअर निरंजन इनवेस्टमेंट कं० प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
187	25663	स्टार्फोर्ड हार्टल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
188	25755	हायड-एअर लोणावला प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
189	25756	इपीड हायड-एअर प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
190	25764	सेन्टार बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
191	26990	दरुसाइज शाफटींग्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
192	27276	अटलांटा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
193	27280	बीएसजे बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
194	27282	खंदार केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
195	28955	शिरूर होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
196	29961	इन्टीग्रेटेड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
197	29964	बग्गा सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
198	29968	शिंंगार डीलक्स सप्लाय एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
199	29989	झेनिथ कन्सल्टकरन्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
200	29990	देशमुख इनजिक्कम कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
201	29992	ओके इन्सुलेशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
202	30002	शबरी आर्ट प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
203	30104	टाइस्टार एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
204	31579	टेलस्टार हार्टल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
205	31986	दीपहीट बनर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
206	32201	स्वस्तिक कुकींग एपलाइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
207	32742	गोखले कन्सल्टकशन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
208	32746	बीकॉन केमिकल इजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
209	32748	शुभमफेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
210	32750	विके एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
211	32756	शिरगावकर एसोसिएटी कन्सलटंसी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
212	32758	लाला भगवानदास & सन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
213	32776	नेच्युरा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
214	32785	कसाद डिस्टीलरीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
215	32793	मंगरोलवाला ट्यूब्स कन्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
216	32794	शामजीभाई पारेख इनवेस्टमेंट्स & ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
217	32795	सोमेश फाईनान्स & इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
218	32797	नागेन्द्र पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
219	32801	कम्प्यूटर करिश्मा प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
220	32803	ग्रोमेक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
221	32805	बितुल होजियरी इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
222	32806	सनमार्क कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
223	32815	बेसिक्स कन्सल्टेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009

224	32816	के एस मोरारका & सन्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
225	32820	सिग्नल्स विडियो प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
226	32837	मांडलिया कन्सल्टेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
227	32986	माणिक कटलरी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
228	35771	पी वी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
229	35787	युवक आरगेनिक्स इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
230	35797	बसेरा टेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
231	35808	हिंदिया ग्रोथ फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
232	35809	स्कायमार्क एवियेशन प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
233	35813	गुड हेल्थफार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
234	35832	न्युकोम्बे इनवेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
235	35839	पार्थ होल्डींग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	18/11/2009
236	35856	रुपेन एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
237	35858	बॉम्बे सिलीकॉन वॉटर प्रुफींग प्रा.लि.	18/11/2009
238	38220	इंस्टट अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
239	38793	प्रभु हिरा लिङ्गींग एण्ड इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
240	39359	आदर्श अपार्टमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
241	42246	अंडन्हा इंजिनिअर्स प्रा.लि.	18/11/2009
242	45579	दिपमंगल कन्सल्टेशन प्रा.लि.	18/11/2009
243	45582	स्नेकॉक केमीकल्स एण्ड कन्सल्टेंस प्रा.लि.	18/11/2009
244	45591	व्हिका फाईनांस प्रा.लि.	18/11/2009
245	45595	मंगेश कमोडीटी ब्रोकर्स प्रा.लि.	18/11/2009
246	45596	जोगीनी डेवलपर्स प्रा.लि.	18/11/2009
247	45600	इंटीग्रेटेड रीसोर्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
248	45615	सेंटॉर इलोकटोनीक इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	18/11/2009
249	45623	श्री राम डेवलपर्स प्रा.लि.	18/11/2009
250	45629	वूडपेकर प्लायवूड प्रा.लि.	18/11/2009
251	45630	जेनेसीस स्कूलेशन प्रा.लि.	18/11/2009
252	45631	श्री तीर्थ टेडर्स प्रा.लि.	18/11/2009
253	45634	श्री कार इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	18/11/2009
254	45638	इक्विटाइट इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	18/11/2009
255	45640	प्राइम मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
256	45647	मशिनेक्स एजसिज [इंडिया] प्रा.लि.	18/11/2009
257	45662	एलविजय सेल्स प्रा.लि.	18/11/2009
258	45666	मोरया सिंथेटिक्स प्रा.लि.	18/11/2009
259	45667	स्टेलियन वॉटर सप्लाय सिस्टमस् प्रा.लि.	18/11/2009
260	45668	श्री नाकोडाजी डेरी फार्मस प्रा.लि.	18/11/2009
261	45676	श्री गणेश ल्यूब ऑईल प्रा.लि.	18/11/2009
262	45680	वेस्टन टिवस्टर प्रा.लि.	18/11/2009
263	45687	निमको ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
264	45688	कर्नाला रिसॉर्ट्स प्रा.लि.	18/11/2009
265	45693	उडिसी फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	18/11/2009
266	45697	के डेवलपमेंट कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
267	45698	जयको इंजिनिअर्स एण्ड फॅब्रिकेटर्स प्रा.लि.	18/11/2009
268	45699	विश्वशांति डेवलपमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
269	45700	यशोधन कन्सल्टेशन एण्ड लैंड प्रा.लि.	18/11/2009
270	45712	दिनसू डेवल एण्ड टूंस प्रा.लि.	18/11/2009
271	45715	पूर्वा डेवलपर्स प्रा.लि.	18/11/2009

272	45716	पंजा ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
273	45721	टेकॉन कोटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
274	45736	पूर्वा बिल्डर्स प्रा.लि.	18/11/2009
275	45737	सिलिकॉन मोटर्स स्टॉपिंग प्रा.लि.	18/11/2009
276	45740	बिटर बिल्ड इंडिया प्रा.लि.	18/11/2009
277	45742	स्पेस डेवलपर्स प्रा.लि.	18/11/2009
278	45744	जामविर होटल प्रा.लि.	18/11/2009
279	45763	फेरी लैंड बिल्डर्स प्रा.लि.	18/11/2009
280	45767	संदेप एजन्सी कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
281	45774	यश कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	18/11/2009
282	45781	मिशिल टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
283	45788	सनएरा एक्सपोर्ट एण्ड टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
284	45793	शानवीक मास कम्युनिकेशनस प्रा.लि.	18/11/2009
285	45802	व्हीआयपी क्लब सर्विसेस प्रा.लि.	18/11/2009
286	45803	कानसुन इनवेस्टमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	18/11/2009
287	45812	सुपरसाइन डेवलपर्स प्रा.लि.	18/11/2009
288	45819	टिम एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	18/11/2009
289	45821	साई सिध्दी बिल्डर्स प्रा.लि.	18/11/2009
290	45824	ली लाइट एक्सीम प्रा.लि.	18/11/2009
291	45833	कीजल कंप्यूटर्स प्रा.लि.	18/11/2009
292	45849	भीमाशंकर फार्म प्रा.लि.	18/11/2009
293	45854	फाइन हेअर वेव प्रा.लि.	18/11/2009
294	45857	गुडरूप पैकेजिंग प्रा.लि.	18/11/2009
295	45867	कोनार्क कंप्यूटर्स प्रा.लि.	18/11/2009
296	45869	मुक्ति टूर्स एण्ड ट्रैवल प्रा.लि.	18/11/2009
297	45871	गणात्रा फाईनान्स प्रा.लि.	18/11/2009
298	45883	फोरफोल्ड फार्मासिटिकल्स प्रा.लि.	18/11/2009
299	45903	मुमताज टॉय प्रा.लि.	18/11/2009
300	45909	तीदल फोटो रायटर्स प्रा.लि.	18/11/2009
301	45914	सिलव्हर रोज़ सिलव्हरवेयर प्रा.लि.	18/11/2009
302	45917	गेटवे सफारी प्रा.लि.	18/11/2009
303	45922	राजेश्वर इंपेक्स प्रा.लि.	18/11/2009
304	45929	योर-ऑटोज़ लिझिंग प्रा.लि.	18/11/2009
305	45931	ठाकर योशिंग कॉटन प्रा.लि.	18/11/2009
306	45932	मीनाटो बिल्डर्स प्रा.लि.	18/11/2009
307	45942	अलोक पॉलीपैक इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	18/11/2009
308	45944	एलबी रिअल इस्टेट एण्ड सेविगिंस् कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
309	45954	श्रोवा ज्वेल्स एण्ड एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
310	45957	म्हाडा इंजीनीअरिंग कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
311	45966	श्री आर्ट फाउंडेशन एण्ड एक्सेचेंज प्रा.लि.	18/11/2009
312	45967	कॅफे वृंदावन प्रा.लि.	18/11/2009
313	50129	आर की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.	18/11/2009
314	51404	सुनिता होटल प्रा.लि.	18/11/2009
315	51408	विना रिसॉर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
316	51415	ध्रुव-कैम प्रा.लि.	18/11/2009
317	51420	मनोलता सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
318	51992	रकम फाईनान्स एण्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
319	52168	श्री नकोदाजी इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	18/11/2009

320	52362	त्रीकाया इस्टेट प्रा.लि.	18/11/2009
321	53684	बुडलैंड अपार्टमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
322	53707	सिकॉन कंसलटन्सी प्रा.लि.	18/11/2009
323	53720	सनराइज एक्सपो इस्ट इंडीया प्रा.लि.	18/11/2009
324	53736	एक्सलेंट डाएम कटर्स प्रा.लि.	18/11/2009
325	53771	असवीर इंटरनेशनल प्रा.लि.	18/11/2009
326	53773	अर्जेंट एक्सपोर्ट इंडीया प्रा.लि.	18/11/2009
327	53777	थर्मोजिनो इंजीनीअर्स एण्ड कंसलटन्स प्रा.लि.	18/11/2009
328	53783	रेन-डॉप कन्सल्टेशन कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
329	53801	हिमोश इंपेक्स प्रा.लि.	18/11/2009
330	53814	सीताराम ब्रदर्स ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
331	53830	रिटा कन्सल्टेशन प्रा.लि.	18/11/2009
332	53872	शिन्ना इंपेक्स प्रा.लि.	18/11/2009
333	53880	विकास सॉफ्ट वेयर प्रा.लि.	18/11/2009
334	55081	पास्टऑन इंडस्ट्रियलाईज बिल्डिंग एण्ड कंसलटन्स प्रा.लि.	18/11/2009
335	55102	सरदार सेल्स प्रा.लि.	18/11/2009
336	57700	बॉन-बॉन रिसॉर्टस् एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
337	57705	महाराष्ट्र फार्मा एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
338	57782	मेरीटाईम इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
339	57794	मराठवाडा इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
340	57862	वादविया ट्रेडिंग प्रा.लि.	18/11/2009
341	57934	अभिरित इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
342	57957	निशि कन्सल्टेशन प्रा.लि.	18/11/2009
343	58000	बोसमी एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
344	58006	रोमन ट्राईवल्स प्रा.लि.	18/11/2009
345	58022	ऑटूली ट्राईवल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.	18/11/2009
346	58025	केम-मेच कंसलटन्सी प्रा.लि.	18/11/2009
347	58030	सी क्यूस्ट शिपमेंनेजमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
348	58037	कॉनस्ट्रक्शन ट्रेडिंग प्रा.लि.	18/11/2009
349	58039	दावत गार्डन होटल्स एण्ड रेस्टॉरंट प्रा.लि.	18/11/2009
350	58048	सुरक्षा ऑप्लाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
351	58051	आर्किन इनवेस्टमेंट एण्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
352	58053	ऑर्कॉन रेंटल्स प्रा.लि.	18/11/2009
353	58062	व्हायदूत मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
354	58064	पार्क पैकजिंग प्रा.लि.	18/11/2009
355	58065	श्री सिध्दविनायक होटल्स प्रा.लि.	18/11/2009
356	58072	विरसेन इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनांस प्रा.लि.	18/11/2009
357	58075	केम सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
358	58105	टिसीकॉन फाइनांस प्रा.लि.	18/11/2009
359	58124	श्री प्रशांत कैपिटल सर्विसेस प्रा.लि.	18/11/2009
360	58125	नित्यानंद बिल्डर्स प्रा.लि.	18/11/2009
361	58137	यूरेका फायर-टेक प्रा.लि.	18/11/2009
362	58146	त्रिमती बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	18/11/2009
363	58170	रसीला एक्सपोर्ट एण्ड फाइनांस प्रा.लि.	18/11/2009
364	58174	गोल्डन अवतार अंडरटाइमिंग एजन्सी प्रा.लि.	18/11/2009
365	58177	कन्सोलीडेटेड स्टॉक ऑक्टोब्रिटीज प्रा.लि.	18/11/2009
366	58184	अपना ट्रांसपोर्टर्स प्रा.लि.	18/11/2009
367	58188	बिग डील एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009

368	58191	अपेक्स कंपीटल एण्ड असेट मैनेजमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
369	58192	बेकॉन कंपीटल एण्ड असेट मैनेजमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
370	58193	अॅकोपोलीज कंपीटल एण्ड असेट मैनेजमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
371	8198	पंचरंग कलर लेंब प्रा.लि.	18/11/2009
372	58211	टीस्टार फ़ाईट फॉरवर्ड प्रा.लि.	18/11/2009
373	58240	लक्ष्मीछाया कंपीटल एण्ड असेट मैनेजमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
374	58244	मॉडीयल ट्रेडिंग प्रा.लि.	18/11/2009
375	58250	ब्राइट यूटीलीटी सर्विसेस प्रा.लि.	18/11/2009
376	58257	फोरचून एअर चार्टरस् प्रा.लि.	18/11/2009
377	58258	विकिंगस् मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
378	58269	लूश मिडो रिसॉर्ट इंडिया प्रा.लि.	18/11/2009
379	58273	वेकन पैक एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
380	58286	संध्या मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
381	58291	श्री नाथजी फिल्म प्रा.लि.	18/11/2009
382	58294	देव फिनटेक कंसलटन्स प्रा.लि.	18/11/2009
383	58385	माउली मॅटरनेटी एण्ड नर्सिंग होम प्रा.लि.	18/11/2009
384	58409	हरोती क्रेडीट एण्ड कंसलटन्सी प्रा.लि.	18/11/2009
385	58416	मापले प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	18/11/2009
386	58436	वित्राग फाइनांस एण्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
387	58459	जगॉर टाइवल्स प्रा.लि.	18/11/2009
388	58478	अविस्सा कंटरर्स प्रा.लि.	18/11/2009
389	58902	श्री साईज्योती कंटरर्स प्रा.लि.	18/11/2009
390	59300	रोमा इंपेक्स प्रा.लि.	18/11/2009
391	59824	ओपल ऑफिस ऑटोमेशन प्रा.लि.	18/11/2009
392	59830	मेहता एण्ड सिंदल रिसॉर्ट होटल्स प्रा.लि.	18/11/2009
393	59838	आर्यन दूरीझम डेवलमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
394	59866	भाग्यप्रभा होटल्स प्रा.लि.	18/11/2009
395	59907	मीरुबाय एक्झीम प्रा.लि.	18/11/2009
396	60144	तुपाक ग्रॅनाइट प्रा.लि.	18/11/2009
397	60254	गायमुख एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
398	60261	केदार लैबॉरेटरीज प्रा.लि.	18/11/2009
399	60268	मयंक इनवेसमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
400	60297	कौशिका मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
401	60315	दर्पन फाइनांसशिअल कंसलटन्सी प्रा.लि.	18/11/2009
402	60348	एमकजॅक्स इंजिनीयरिंग बॉम्बे प्रा.लि.	18/11/2009
403	62027	कोमॅका कन्सल्टेशन मैनेजमेंट कंसलटन्सी प्रा.लि.	18/11/2009
404	62098	मॉनिटर एन्कोन प्रा.लि.	18/11/2009
405	62120	टेनेट इफोटेक प्रा.लि.	18/11/2009
406	62126	सरल एजंसी प्रा.लि.	18/11/2009
407	62130	फाइसेफ कंप्यूटर प्रा.लि.	18/11/2009
408	62133	स्टर्लिंग मशीनरी सेल्स एण्ड सर्विसेस प्रा.लि.	18/11/2009
409	62134	तेजोवश इनवेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
410	62147	हेमंत मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
411	62150	गोल्डक्वीव सिव्युरिटीज प्रा.लि.	18/11/2009
412	62157	सुनिकेल इनवेसमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
413	62161	स्मेश इनवेसमेंट कंसलटंट प्रा.लि.	18/11/2009
414	62162	टिक्कल कन्सल्टेशन कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
415	62171	कल्पवृक्ष ओवरसिज प्रा.लि.	18/11/2009
416	62186	नाथद्वार पर्यटन संकुल प्रा.लि.	18/11/2009
417	62189	पंक्ती कंपीटल होल्डिंग प्रा.लि.	18/11/2009

418	62205	चतुर होलिंग प्रा.लि.	18/11/2009
419	2217	पिंकी टेडिंग प्रा.लि.	18/11/2009
420	62218	संधु फाइट सिस्टम प्रा.लि.	18/11/2009
421	62232	अग्नी डेवलपर्स प्रा.लि.	18/11/2009
422	62234	कुलकर्णी कंसलटन्स प्रा.लि.	18/11/2009
423	62239	स्नेहल फाइनांस प्रा.लि.	18/11/2009
424	62240	महालक्ष्मी लिङ्गींग फाइनांस एण्ड इनवेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	18/11/2009
425	62243	नमिता एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
426	62245	सेनल थर्मोमोटर्स प्रा.लि.	18/11/2009
427	62247	बुबले इनवेसमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
428	62270	मिराज कुरीयर प्रा.लि.	18/11/2009
429	62280	अलबुकर्क इनवेसमेंट एण्ड कंसलटन्स प्रा.लि.	18/11/2009
430	62282	नेटस्की फाइनांस एण्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
431	62289	मार्टएण्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
432	62300	लोटस एण्ड बी डिझाईग प्रा.लि.	18/11/2009
433	62301	चंद्रमोहन फाइनांस प्रा.लि.	18/11/2009
434	62307	बुलफिच एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
435	62316	टॉप गन डिटेक्टिवज एण्ड सिक्युरिटीज प्रा.लि.	18/11/2009
436	62318	गिरी सैन सेल्स प्रा.लि.	18/11/2009
437	62323	सीवोर्थ कार्गो मूवर्स प्रा.लि.	18/11/2009
438	62329	श्री श्रीनावास फिल्म प्रा.लि.	18/11/2009
439	62337	ससमीर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
440	62345	त्रीकॉन मेडिकल सिस्टम प्रा.लि.	18/11/2009
441	62366	कटहर इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	18/11/2009
442	62370	टो इम्पेक्स प्रा.लि.	18/11/2009
443	62684	लैंड मार्क होलिंग प्रा.लि.	18/11/2009
444	62715	वेइडर्स स्पोर्ट्स इंडिया प्रा.लि.	18/11/2009
445	62773	फोरसन डेवलपर्स प्रा.लि.	18/11/2009
446	62781	लेविस इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	18/11/2009
447	62819	जेमिमा फिल्मस् प्रा.लि.	18/11/2009
448	62827	वामन एक्सपोर्ट प्रा.लि.	18/11/2009
449	62831	मोनाच होलिंग प्रा.लि.	18/11/2009
450	63702	संतोषी डोमेस्टिक अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
451	64333	राधिका कॉटन मिल्स प्रा.लि.	18/11/2009
452	64477	टिकमनी सेंथेटिक प्रा.लि.	18/11/2009
453	66056	मिकाडो सेंथेटिक प्रा.लि.	18/11/2009
454	67038	धनपती एलकॉम एण्ड फीब्रा प्रा.लि.	18/11/2009
455	67416	कृपा अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
456	68139	केशव सिंथेटिक प्रा.लि.	18/11/2009
457	68306	मार्शल टाइवल गुड्स प्रा.लि.	18/11/2009
458	69479	प्रयाग इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	18/11/2009
459	69594	टैलेंट कंप्यूटर टेनींग प्रा.लि.	18/11/2009
460	69626	प्रेस्टिज सिल्क मिल्स प्रा.लि.	18/11/2009
461	71011	ओमेगा कंप्यूटर टेनींग प्रा.लि.	18/11/2009
462	71826	पिलाई एण्ड पीटर असोसीएट प्रा.लि.	18/11/2009
463	71833	मोहिनी पीव्हीसी पाईप एण्ड कास्टिंग प्रा.लि.	18/11/2009
464	71834	अलाएन्स टाइवल प्रा.लि.	18/11/2009
465	71849	टिंगर कंसलटन्सी सर्विसेस प्रा.लि.	18/11/2009
466	71855	न्यू वेज इक्यूपमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
467	4134	नोअस पेरीफेरल प्रा.लि.	18/11/2009

469	75766	कॉम्प्यूटिंग इंडिया प्रा.लि.	18/11/2009
470	75948	ऑथोरिटी कॉम्प्यूटर सर्विसेस प्रा.लि.	18/11/2009
471	76044	गोयल सिस्टम प्रा.लि.	18/11/2009
472	78178	कय्यमस् व्हैक्यूम पम्पस प्रा.लि.	18/11/2009
473	78214	प्रिंटस मास्टर फॉशन फॅब्रिक प्रा.लि.	18/11/2009
474	79573	भीलवाडा फॅब्रिक मार्केटिंग प्रा.लि.	18/11/2009
475	83488	वैभव ग्रैनाईट प्रा.लि.	18/11/2009
476	83517	आयकॉन अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
477	83716	करिश्मा क्लोथिंग इम्पेक्स प्रा.लि.	18/11/2009
478	84294	पायल क्रियेशन प्रा.लि.	18/11/2009
479	84586	अनको ग्राफिक प्रा.लि.	18/11/2009
480	84975	नो-टम्पस फॉशन प्रा.लि.	18/11/2009
481	85372	रिलाइन मैनुफैक्चरिंग प्रा.लि.	18/11/2009
482	85476	स्पेस ऑपरल्स प्रा.लि.	18/11/2009
483	85840	अनीटी एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	18/11/2009
484	85956	श्री जीदल वेईंग मील्स प्रा.लि.	18/11/2009
485	86783	दुग्गड पॉलीमर्स एण्ड वायर्स प्रा.लि.	18/11/2009
486	87091	लॉडस् गारमेंट्स प्रा.लि.	18/11/2009
487	87168	फोरटी गारमेंट्स प्रा.लि.	18/11/2009
488	88766	पटेल होम अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
489	90494	लकविन गारमेंट्स मैनुफैक्चरिंग प्रा.लि.	18/11/2009
490	91910	जयपान किचन एड प्रा.लि.	18/11/2009
491	94019	सीमटॉन सिस्टम एण्ड सर्विसेस प्रा.लि.	18/11/2009
492	98534	जे.आर. कंड्रुमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.	18/11/2009
493	101902	ब्लिस अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
494	103567	मीन होम अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
495	105406	केन्नन सिस्टम प्रा.लि.	18/11/2009
496	110263	निओलक्स केबल प्रॉडक्ट प्रा.लि.	18/11/2009
497	110525	डायनामीक स्वीचगीयर प्रा.लि.	18/11/2009
498	112763	यूनीटेक्स शिपिंग एण्ड मैनेजमेंट प्रा.लि.	18/11/2009
499	115251	होमैक्स अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
500	116462	क्रिस्टल फ्लोरा - टेक प्रा.लि.	18/11/2009
501	117421	इसबी इंडस्ट्रियल सप्लाइज प्रा.लि.	18/11/2009
502	118672	श्री हरी किचन अल्पाइन्सेस प्रा.लि.	18/11/2009
503	123984	सनगीर इंटरप्राइज प्रा.लि.	18/11/2009
504	125728	मोबीकॉन कंपोनेंट इंडिया प्रा.लि.	18/11/2009
505	130432	किनान्स प्रो ऑडिओ एण्ड व्हिडीओ स्टुडिओ प्रा.लि.	18/11/2009
506	131722	एबी वायर्स एण्ड अलाउज प्रा.लि.	18/11/2009
507	132001	क्रिस्टल इंसूलेशन एण्ड इंजिनियर्स प्रा.लि.	18/11/2009
508	134234	लीया वायर्स एण्ड केबल प्रा.लि.	18/11/2009
509	135547	जलाराम वायर फोमस प्रा.लि.	18/11/2009
510	135961	पयोनिर वायर इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	18/11/2009
511	141067	यशोवर्धनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.	18/11/2009
512	148860	रतन प्रोसेस इक्विपमेंट प्रा.लि.	18/11/2009

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्रीनिधि अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/एरनाकुलम/560/2009/00677-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीनिधि अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पी. आर. एम. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चैन्ने-600006, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चैन्ने/धारा/560/2009/01043--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के उपरान्त मैसर्स पी. आर. एम. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स केन्टन होस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/एरनाकुलम/560/2009/00313-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केन्टन होस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजम कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चैन्ने-600006, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चैन्ने/धारा/560/2009/01051--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के उपरान्त मैसर्स राजम कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हेरीटेज इंडिया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड के
विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. 560(3)एमसीए/जीसी शिलांग/00212--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हेरीटेज इंडिया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड के नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा उपधारा (5) के अनुसार उनका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ससी कृष्णा हाऊसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चैन्ने-600006, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चैन्ने/धारा/560/2009/01055--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के उपरान्त मैसर्स ससी कृष्णा हाऊसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्रणव मैनेजमेंट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चैन्ने-600006, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चैन्ने/धारा/560/2009/01002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के उपरान्त मैसर्स प्रणव मैनेजमेंट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बजरंग डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चैन्ने-600006, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चैन्ने/धारा/560/2009/01027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के उपरान्त मैसर्स बजरंग डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 4th December 2009

No. 2/2/07-Admn./65764—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Rajiv Verma, Section Officer in the Commission as Under Secretary on ad-hoc basis, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 11.12.2009 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

R. N. NAYAK
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
BUREAU OF POLICE RESEARCH &
DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 30th November 2009

No. 18/10/2007/Bureau of Police Research & Development—The President is pleased to appoint Shri Bhupinder Singh Rana, Deputy Commandant, 12th Bn. BSF, Seemanagar, West Bengal as Vice Principal on deputation basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- (new scale of pay of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/-) in the Central Detective Training School, Chandigarh under Bureau of Police Research & Development cadre for a period of three years with effect from 09.11.2009 (FN).

DHANI RAM
Asstt. Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 16th December 2009

No. O.II.6426/2009-Pers.(AC)—Consequent on acceptance of notice dated 13.10.2009 for Voluntary Retirement from service, Shri B. D. Vinod Kumar, Assistant Commandant (IRLA : 6426) of 146 Bn CRPF, relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st December 2009. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01-12-2009 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIGP (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-3, the 17th December 2009

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.-I/362—The President is pleased to appoint the following Deputy Inspector General on regular promotion to the rank of Inspector General in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade

Pay of Rs. 10,000/- in CISF with effect from the date as noted against him :—

Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as IG on regular basis
Shri D. S. Badwal	NES HQrs., Kolkatta (WB)	09.12.2009 (AN)

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.-I/364—Consequent to his retirement from Government Service on attaining the age of Superannuation Shri Ajeet Singh Shekhawat, relinquished the charge of the post of Inspector General (Adm) CISF HQrs., on 30.11.2009 (AN).

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.-I/363—The President is pleased to appoint the following Commandants on regular promotion to the rank of Senior Commandant in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in CISF by giving notional date of promotion wef 19.04.2007 :—

Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Sr. Commandant
Shri Suresh Kumar K. C.	ECL Seetalpur	19.04.2007 Notional date of promotion

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi, the 17th December 2009

No. Admn.-I/206—Director General of Audit is pleased to appoint the following officials of this office to officiate as Assistant Audit Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 16.12.2009 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Employee Code
1.	Shri Jagminder Singh	1509
2.	Shri Nitin Suman	1634
3.	Shri Barla V. V. S. Durga Prasad	1416
4.	Smt. Roopa Pathak	1493
5.	Shri Shri Krishna	1522

V. K. DUBEY
Senior Audit Officer (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), BIHAR

Patna-800001, the 14th December 2009

No. L.A.Admn.-I-Promo-AAO-1637-1638—Consequent upon the re-designation of the merged cadre of Section Officer and Assistant Accounts/Audit Officer and classification as Group 'B' Gazetted, the following officers have been re-designated as Assistant Audit Officer w.e.f. 27.05.2009 :—

1. Shri Pramod Kumar Singh
2. Shri Bhuwan Bhaskar
3. Shri Rajeev Kumar
4. Shri Shashidhar Kant
5. Shri Vishwajit Kumar Srivastav
6. Shri Diwakar Ray
7. Shri Amitabh Kumar
8. Shri Kumar Bhushan
9. Shri Kamal Kishore
10. Shri Shambhu Prasad Gupta
11. Shri Binod Kumar-II
12. Shri Tanveer Hasan
13. Shri Binoy Sheel Gautam
14. Shri Sumeshwar Paswan
15. Shri Satya Prakash Singh

D. JAI SANKAR
Examiner of Local Accounts

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KERALA

Thiruvananthapuram, the 23rd November 2009

No. O.E./E&C/EIVP/118—The following officials of IA&AD retired from service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Sh. S. Dickson	Accounts Officer Main Office, Trivandrum	31.10.2009 AN (Superannuation)
2.	Sh. N. Mohanadas	Accounts Officer Main Office, Trivandrum	31.10.2009 AN (Superannuation)

Sd./- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

DEPARTMENT OF COMMERCE
(SUPPLY DIVISION)
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES &
DISPOSALS

New Delhi-110001, the 17th December 2009

No. A-32013/5/2008/A-6—The President is pleased to appoint Shri Sunder Lal, an officer of Junior Administrative Grade of Indian Inspection Service (Group 'A') to the Senior Administrative Grade of the Service, as Deputy Director General, in the Scale of Pay PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) from the date of taking over of the charge by him i.e. from 16.10.2009 (FN).

K. K. SAXENA
Deputy Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 4th December 2009

No. A-19011/429/2003-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri R. A. Mishra, Chemist is promoted on officiating basis to the post of Senior Chemist in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 10.11.2009 (FN).

S. DAS GUPTA
Administrative Officer
for Controller General

The 9th December 2009

No. A-19012/294/91-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri K. D. Dhomne, Asstt. Mining Engineer is promoted to the post of Assistant Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 04.12.2009 (F.N.).

S. DAS GUPTA
Senior Administrative Officer
for Controller General

The 11th December 2009

No. A-19011/533/09-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri S. K. Shami, Asstt. Mineral Economist(Int) is promoted to the post of Deputy Mineral Economist(Int) in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 04.12.2009 (A.N.).

S. DAS GUPTA
Senior Administrative Officer
for Controller General

No. A-19012/302/2008-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri C. B.

Malviya, Editor is promoted to the post of Senior Editor in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 08.12.2009 (FN).

S. DAS GUPTA
Senior Administrative Officer
for Controller General

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-16, the 17th November 2009

No. 1171B/A-19011/2-RK/2008/19B—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar to the post of Geophysicist (Junior) in Geological Survey of India in the Pay Band-3/Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- as per normal rules on temporary basis with effect from 26.06.2009 (FN) until further orders.

KARTIKEYA VERMA
Administrative Officer Gr.-I
for Director General

No. 1172B/A-19011/2-AVK/2008/19B—The President is pleased to appoint Shri Ajay Vinayak Kulkarni to the post of Geophysicist (Junior) in Geological Survey of India in the Pay Band-3/Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- as per normal rules on temporary basis with effect from 20.07.2009 (FN) until further orders.

KARTIKEYA VERMA
Administrative Officer Gr.-I
for Director General

No. 1173B/A-19011/2-LKK/2008/19B—The President is pleased to appoint Shri Lalit Kumar Khatri to the post of Geophysicist (Junior) in Geological Survey of India in the Pay Band/Scale-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- as per normal rules on temporary basis with effect from 26.06.2009 (FN) until further orders.

KARTIKEYA VERMA
Administrative Officer Gr.-I
for Director General

CORRIGENDUM

No. 1174B/A-19011/2-LKK/2008/19B—In partial modification of this office Notification No. 1888A to 1898A & 4036 SP to 4041 SP /A-19011/2-LKK/2008/19B dated 18.08.2009, the date of taking over charge as Geophysics (Jr.) of Shri Lalit Kumar Khatri may be read as 13.07.2009 (FN) instead of 26.06.2009. The others are remain unchanged.

KARTIKEYA VERMA
Administrative Officer Gr.-I
for Director General

SURVEY OF INDIA SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun-248001, the 11th December 2009

No. C-6251/718-A—The undermentioned Office Superintendents are hereby promoted to the post of Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Gazetted) in Survey of India in PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,600/- Grade Pay on regular basis with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri N. J. Chacko	04.11.2009
2.	Smt. Daisy Cherian	03.11.2009

P. N. KOUL
Maj. Gen.
Addl. Surveyor General
for Surveyor General of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 31st July 2009

ORDER

No. 1/15(4)/2007-Vig./530/916—Whereas it was alleged that Shri Deen Dayal Pande while functioning as Scientific Officer/D in Geochronology Lab., Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (AMD), Hyderabad has been overstaying the leave unauthorizedly from 29.10.05 onwards thereby dislocating the work of the Laboratory;

By the above said act, Shri Deen Dayal Pande has shown lack of devotion to duty and behaved in a manner unbecoming of a Government Servant thereby contravening the provisions of Sub-rule (1) (ii) and (iii) of Rule 3 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964;

And whereas the said Shri Deen Dayal Pande was informed of the charge and of the action proposed to be taken against him under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, vide Memorandum No. 1/15(4)/2007-Vig./7289 dated 21.11.2007;

And whereas the said Shri Deen Dayal Pande did not accept the charge levelled against him vide his written statement of defense dated 21.01.2008;

And whereas an inquiry under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 was ordered appointing an Inquiring Authority and a Presenting Officer, vide Order No. 1/15(4)/2007-Vig/25 dated 06.06.2008 and Order No. 1/15(4)/2007-Vig/24 dated 06.06.2008, respectively.

And whereas the said Shri Deen Dayal Pande vide his letter dated 11.08.2008 admitted the charge levelled against him unconditionally during the preliminary hearing held on 11.08.2008.

And whereas after completion of the inquiry proceedings, the Inquiring Authority submitted his report dated 12.08.2008 holding the charge levelled against the said Shri Deen Dayal Pande as proved beyond doubt.

And whereas after careful consideration of the inquiry report and other relevant records of the case, the Disciplinary Authority agreed with the findings of Inquiring Authority.

And whereas a copy of the inquiry report was sent to the said Shri Deen Dayal Pande vide memorandum No. 1/15/(4)/2007-Vig/323 dated 15.10.2008 for submitting his written representation, if any, against the Inquiry Report.

And whereas the memorandum No. 1/15(4)/2007-Vig/323 dated 15.10.2008 sent to the Secunderabad address of the said Shri Pande was acknowledged on 01.11.2008 and the one sent to his Hyderabad address was received back undelivered with postal remarks 'Addressee left'. No representation has been received from the said Shri Deen Dayal Pande. Instead, the said Shri Deen Dayal Pande vide his letter dated 15.12.2008 requested to extend his leave for a further period upto 31.12.2009. The leave requested for by the said Shri Pande was not granted by the Leave Sanctioning Authority and the same was intimated to him vide telegram dated 30.12.2008. Shri Pande has not reported for duty so far and continues to absent unauthorisedly.

And whereas after careful consideration of the inquiry report and all other relevant records of the case, the Disciplinary Authority came to the conclusion that the ends of justice would be met in this case if the penalty of 'dismissal from service' is imposed on the said Shri Deen Dayal Pande.

And whereas Union Public Service Commission (UPSC) was consulted in the matter. The Commission after considering all relevant records and other aspects of the case advised imposition of the penalty of 'dismissal from service' which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government' on the said Shri Deen Dayal Pande vide its letter No. F.3/4/2009-SI dated 23.06.2009 (copy enclosed).

And whereas after careful consideration of the advice of UPSC, the Disciplinary Authority accepted the advice of the Commission, i.e. to impose the penalty of 'dismissal from service' on the said Shri Deen Dayal Pande.

Now therefore, the President, in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 hereby imposes the penalty of 'dismissal from service' which shall

ordinarily be a disqualification for future employment under the Government on the said Shri Deen Dayal Pande, Scientific Officer/D, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad with immediate effect.

The period of unauthorized absence from 29.10.2005 till the date of issue of this order shall be treated as dies-non.

By order and in the name of the President.

ANIL KAKODKAR
Secretary

Shri Deen Dayal Pande
Scientific Officer/D, AMD, Through : Director, AMD,
H.No.1-12-110, ALWAL, Hyderabad
Secunderabad-500010.

Shri Deen Dayal Pande
Scientific Officer/D, AMD, Through : Director, AMD,
H.No.4-6-224, Esamia Bazar, Hyderabad
Hyderabad-500027.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vardhman Exim Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th December 2009

No. 111/52309/17811—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vardhman Exim Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Scope Infin Private Limited

Ahmedabad-380013, the 17th December 2009

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2009/00167/27949—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Scope Infin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Of the following Companies :

Mumbai, the 16th December 2009

No. ROC/560(5)/2009 – Notice is hereby given pursuant to Section 560, Sub-section (5) of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been Struck off the Register and the said Companies are dissolved :-

SR. NO.	REG.NO.	NAME OF THE COMPANY	u/s.560(5)
1	1390	NAROTTAM AND PEREIRA PVT LTD	17/11/2009
2	1554	HAGUE THEATRE PVT.LTD.	17/11/2009
3	1630	UNITED EASTERN AGENCIES PVT LTD	17/11/2009
4	2836	EXCELSIOR ELECTRIC LAMPS PVT LT.	17/11/2009
5	3465	INSURANCE FINANCE & GENERAL SERVICE PVT LTD	17/11/2009
6	3503	BOMBAY TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
7	3509	SANGHVI AND SONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
8	3587	IWACOM PVT LTD	17/11/2009
9	3606	UNIVERSAL COAL CO PVT LTD	17/11/2009
10	3736	BOMBAY INVESTMENT CO PVT LTD	17/11/2009
11	3737	HANUMAN TRADING CO PVT LTD	17/11/2009
12	3741	INDUSTRIAL DYES&CHEMICALS PVT LTD	17/11/2009
13	3752	AFRICA TRADERS & EXPORTERS PVT LTD	17/11/2009
14	3810	TRI OCEAN DYNAMICS PVT LTD	17/11/2009
15	3822	LAKSHMI INVESTMENT TRUST PVT LTD	17/11/2009
16	3824	INDIA BOLTS&RIVETS PVT LTD	17/11/2009
17	3841	RAJA BAHADUR MOTILAL PVT LTD	17/11/2009
18	3849	NEW INDIA PICTURES CORPN PVT LTD	17/11/2009
19	3898	SHARE TRADERS PVT LTD	17/11/2009
20	3907	HIND AFRICA AGENCY PVT LTD	17/11/2009
21	3910	BAWANY TRADING PVT LTD	17/11/2009
22	3954	KHATAU VALLABHADAS PVT LTD	17/11/2009
23	3967	JHUN JHUNWALA SONS PVT LTD	17/11/2009
24	3985	SIMON SONS PVT LTD	17/11/2009
25	3991	NEW BOMBAY THEATRE PVT LTD	17/11/2009
26	4172	GUJARAT ADVERTISING AGENCY PVT LTD	17/11/2009
27	4212	NEW UNITED CONSTRUCTION PVT LTD	17/11/2009
28	4257	AUTO TRADERS BOMBAY PVT LTD	17/11/2009
29	4294	KOCHIG ELECTRONICS & INDUSTRIES PVT. LTD.	17/11/2009
30	4308	RAJA BAHADUR SUKHDEO SAHAI JAIN DISTRIBUTORS PVT. LTD.	17/11/2009
31	12262	WESTERN INDIA AGRO-CHEMICALS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
32	12610	BENCO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
33	12704	ENSIGN ENGINEERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
34	12705	EMAGE ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
35	12712	PINTACKS PVT LTD	17/11/2009
36	12713	RADIANT RUBBER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
37	12722	ASHWANI TRADERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
38	12725	BOMBAY ANCHOR CHAINS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
39	12728	OYLE TRANSPORT PRIVATE LIMITED	17/11/2009
40	12746	AMALGAMATED ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	17/11/2009

41	12759	TELSTAR ADVERTISING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
42	12773	KISHORE SAHU PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
43	12811	FILMASCO PRIVATE LIMITED	17/11/2009
44	12820	CHEMIDA (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
45	12839	SACHASAUDA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
46	12840	WADHI BROTHERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
47	12846	MILLANS PRODUCTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
48	12866	ESJAY'S RESEARCH SERVICES PRIVATE LIMITED.	17/11/2009
49	12882	MEGHALA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
50	12884	VYAS AND KLEIN PRIVATE LIMITED	17/11/2009
51	12889	SEVEN SEAS EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
52	12891	VIEW SEA PRIVATE LIMITED	17/11/2009
53	12896	PEACE PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
54	12899	GATEWAY TOURS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
55	12910	ARANASA ENGG & MFGING.CO.PRIVATE LIMITED	17/11/2009
56	12917	FAMILY BENEFIT SAVINGS FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
57	12932	PASARI ESTATES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
58	12936	RENU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
59	12948	VIPAN PRIVATE LIMITED	17/11/2009
60	12949	SHREE ARVIND DYE CHEM INDUSTRIES PVT. LTD.	17/11/2009
61	12956	STRABIT BUILDING UNITS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
62	12958	TAMBAWALA NON-FERROUS METAL AGENCIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
63	12963	ABHINAVA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
64	12970	MAYUR ART PRIVATE LIMITED	17/11/2009
65	12974	PEFCO PRIVATE LIMITED.	17/11/2009
66	12983	NIRMAL RUBBER & BOARD MILLS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
67	12987	SUSHIL M BILANEY & COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
68	13000	MKRT CONSKTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED.	17/11/2009
69	13004	BOMBAY LUBRICANTS & FUEL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
70	13010	INDEX TRADERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
71	13026	STERLING AIDS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
72	13030	RASHMI AGENCIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
73	13034	M T EXPORT IMPORT COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
74	13042	PROSPECT CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
75	13045	AROMA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
76	13047	BACK BAY BUILDERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
77	13050	SARVODAYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
78	13052	INVESTORS ESTATE AND FINACNE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
79	13077	MALHOTRA FINANCE & AGENCIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
80	13080	JOYCE TIMES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
81	13091	CIEMS MOTORS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
82	13115	ANAND BENEFIT SOCIETY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
83	13658	SATYAYUGA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
84	13661	NITYANAND CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
85	13666	MAHARASHTRA FILM DISTRIBUTION COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
86	13670	SHETTY'S CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
87	13671	SHRINIWAS CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
88	13678	JHANKAR CHITS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
89	13682	BRITANNIC HOSIERY (OVERSEAS) COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
90	13689	KOTHARI BENEFIT CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
91	13693	KRELL (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
92	13694	SOUND CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
93	13699	MANGHARAM & SONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
94	13700	TRIVENI BENEFIT CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009

95	13703	KAMGAR CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
96	13709	LAXMICHAND SONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
97	13721	S PRATIMA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
98	13731	SEVEN SEAS SHIPPING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
99	13738	GRAFFIN WELL POINT (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
100	13743	LOKPRIYA SALES & SERVICES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
101	13744	HEIDICO TEXTILES PRODUCTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
102	13746	VIMLAB CHEMICALS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
103	13749	RIGHT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
104	13759	UDAYA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
105	13762	KAMANI SERVICES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
106	13764	SAVEWELL CHIT FUND PRIVATE LIMITED	17/11/2009
107	13766	SHOBHA CHIT FUND AND AGENCIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
108	13773	VIJAYA ENTERPRISES HOUSING ESTATES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
109	13862	CHEMCE INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
110	14016	ELECTRIDES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
111	14537	A R K BATTERIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
112	15919	JAINSON ROADLINES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
113	15922	JUBILEE SAVINGS & FINANCE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
114	15923	TRIMURTI IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
115	15927	SAFALA PAINTS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
116	15934	YASHODHAN BUILDERS PRIVATE LIMITED.	17/11/2009
117	16228	R S WIRES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
118	17716	GESSTLE ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
119	18772	UDAY INSTRUMENTS AND CABLES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
120	18774	KAYTEE EXPORTERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
121	18777	URVASHI FILMS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
122	18778	DECENT SERVICES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
123	18780	LUNA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
124	18782	A-AILERON AGENCIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
125	18788	CF BULLION REFINERY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
126	18789	BHIMWAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED	17/11/2009
127	18796	P.M. FINANCE AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
128	18804	BEAS EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
129	18814	VAIBHAV SHIP SAMUS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
130	18822	DASTUR MEDICAL CLINIC PRIVATE LIMITED	17/11/2009
131	18841	LITHOO CHEMICALS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
132	18844	MARITEX EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
133	18845	AUTO WORLD FILAMENTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
134	18850	K.C.M. CONSULTANTS & ENGINEERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
135	19113	SATARA FORGINGS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
136	19219	ASIATIC TRAVEL SERVICE AND CARGO PRIVATE LIMITED	17/11/2009
137	19285	VISHWA EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
138	19288	BILASRAI FINANCE & MANAGEMENT CONSULTANTS PVT. LTD.	17/11/2009
139	19298	CHOWGULE METALLURGICAL & ENGINEERING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
140	19306	MILAN TRAVEL SERVICE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
141	19308	ELECTRO FISHERIES & REFRIGERATOR COMPANY PVT. LTD.	17/11/2009
142	19310	KAMEDES CHEMICAL PRIVATE LIMITED	17/11/2009
143	19325	SUPER CAN MANUFACTURERS & REPAIRS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
144	19328	WEST ASIA SHIPPING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
145	19330	SHILPI LAMINATES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
146	19332	PREMCHAND ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
147	19342	PHE-CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
148	19346	METCOF PROJECT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009

149	19351	SELVEL PACKAGING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
150	19353	SAIFEE EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
151	19354	SHIBAAM EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
152	19358	S V FILMS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
153	19360	PREMIER PEN & PLASTICS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
154	19362	BOMBAY NAILS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
155	19363	NEMAG TOOLS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
156	19371	THE INDEX SALES COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
157	19376	SHIPCO SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
158	19382	AMAR CHEMICALS PVT LTD	17/11/2009
159	19383	SIDMANN COATING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
160	19393	OES ENGINEERING SERVICE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
161	21181	SOLACE TRAVEL SERVICE PRIVATE LIMIED	17/11/2009
162	21186	KHANNA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
163	21190	SHAAN BUILDERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
164	21191	SUGAR-LAND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	17/11/2009
165	21204	CONCORD PLASTICS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
166	21215	RAM RATAN'S ROSIN PRIVATE LIMITED	17/11/2009
167	21237	SANJIVALI TRADERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
168	21265	KEE COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
169	21268	INTERCON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
170	21286	BAP TRAVELS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
171	21296	K WADIA EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
172	21297	RASHMI BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
173	21308	FIXOCLIPS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
174	22468	PRAT TRADING & INVESTMENT PRIVATE LIMITED	17/11/2009
175	22471	MILITANT SECURITY BUREAU PRIVATE LIMITED	17/11/2009
176	22478	A R MARKETING PVT LTD	17/11/2009
177	22479	RATAN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
178	22483	MSS INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
179	22484	SHASHI GARWARE INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
180	22485	R P THEATRES PVT LTD	17/11/2009
181	22498	SILVARLINE AGENCIES PVT LTD	17/11/2009
182	22515	SUHASINI NURSERIES PVT LTD	17/11/2009
183	22540	RIVER PARK CONSTRUCTIONS PVT LTD	17/11/2009
184	22552	HENDRE PICNIC PARKS PVT LTD	17/11/2009
185	22561	SUMIRA DRUG CONSULTANCY SERVICES PVT LTD	17/11/2009
186	22566	METTACO ENGINEERING PVT LTD	17/11/2009
187	22605	MINTULYA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
188	22609	MUNAR FARMS PVT LTD	17/11/2009
189	22611	PMT METROLOGY AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
190	22613	MEGHA CONSULTANCY & TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
191	22615	MECHELONIC SWITCHES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
192	22630	RAM BUILDERS PVT LTD	17/11/2009
193	22640	FANTASTIC INVESTMENTS & TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
194	22642	FORESIGHT INVESTMENT & TRADING CO PVT LTD	17/11/2009
195	22662	AMARNATH PRINT GRAPHICS PVT LTD	17/11/2009
196	22666	VISUALS ELECTRONICS PVT LTD	17/11/2009
197	22669	CAN ALL CONSTRUCTIONS PVT LTD	17/11/2009
198	22678	SIGON ENGINEERING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
199	22680	FERNS TIME INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
200	22699	UNITED LIVESTOCK SHIPPING CO PVT LTD	17/11/2009
201	22715	HEART INVESTMENTS PVT LTD	17/11/2009
202	22716	QEP MANUFACTURING ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT LTD	17/11/2009

203	22737	XPRT CLEANING & SAFETY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
204	25226	UNI MARKEETEERS PVT LTD	17/11/2009
205	25236	SARJU PHOTOTYPESETTERS PVT LTD	17/11/2009
206	25240	D C SHETH INVESTMENTS PVT LTD	17/11/2009
207	25244	KHETANI BUILDERS PVT LTD	17/11/2009
208	25248	VISHAL SPINNERS PVT LTD	17/11/2009
209	25255	K D EXPORTS PVT LTD	17/11/2009
210	25259	NILGIRI INVESTMENT CO PVT LTD	17/11/2009
211	25261	V S ENGINEERING AND CONSULTANTS PVT LTD	17/11/2009
212	25262	RASHMI IMPEX PVT LTD	17/11/2009
213	25274	CHANDRA KANT SONS INVESTMENT PVT LTD	17/11/2009
214	25292	GOVINDJI AND SONS INVESTMENT PVT LTD	17/11/2009
215	25294	FOUNTAINHEAD HOUSING INVESTMENT PVT LTD	17/11/2009
216	25298	P R PUBLICITY AGENCIES PVT LTD	17/11/2009
217	25301	GREEN VALLEY HOUSING PVT LTD	17/11/2009
218	25404	GLASCO TRADING CO PVT LTD	17/11/2009
219	25427	AUTFLO VALVES PVT LTD	17/11/2009
220	25444	MASTER MARINE OVERSEAS AGENCIES PVT LTD	17/11/2009
221	25450	RAJBIR FILMS PVT LTD	17/11/2009
222	25468	CONSTRUCT ENGINEERS PVT LTD	17/11/2009
223	25472	MOTI SHIPPING PVT LTD	17/11/2009
224	25479	GOLDFILLED MERCANTILE CO PVT LTD	17/11/2009
225	25483	SYNOMED DRUGS & CHEMICALS PVT LTD	17/11/2009
226	25493	ASYM INVESTMENTS PVT LTD	17/11/2009
227	25542	IRC CARRIERS PVT LTD	17/11/2009
228	25546	BALLARD ESTATE PROPERTIES PVT LTD	17/11/2009
229	25556	GEM GENERAL EQUIPMENT MARKETING PVT LTD	17/11/2009
230	25570	SARVAY INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
231	25571	ARICA EXPORTS PVT LTD	17/11/2009
232	25583	CAABAR ADVERTISING AND MARKETING PVT LTD	17/11/2009
233	25589	SHEELA HOLDINGS PVT. LTD.	17/11/2009
234	25591	SHISHAM HOLDINGS PVT. LTD.	17/11/2009
235	25592	SAHYADRI HOLDINGS PVT. LTD.	17/11/2009
236	25593	SHASHIKANT HOLDINGS PVT. LTD.	17/11/2009
237	25613	HAMIR KALYANI HOLDING PVT LTD	17/11/2009
238	25618	SHREE SUBH HOLDINGS PVT. LIMITED.	17/11/2009
239	25633	BEAM MARKETING PVT LTD	17/11/2009
240	25636	SAVE EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
241	25649	DESBUILD ENVIRONMENTAL ENGINEERING PVT LTD	17/11/2009
242	25651	SHILTON SHIRAZ AND HAMMOND TOURS & TRAVELS SERVICES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
243	25773	TOP-O-TEXE & FINANCE CO PVT LTD	17/11/2009
244	25791	G P TRADERS (TECHNO EXPORTS) PVT LTD	17/11/2009
245	25795	SHAH AGRO INDUSTRIAL PUMPS PVT LTD	17/11/2009
246	25798	SNEH SHAKTI FILMS PVT LTD	17/11/2009
247	25806	MAHARAJA PLASTICS PVT LTD	17/11/2009
248	25807	SHEFALI HOLDINGS AND AGENCIES PVT LTD	17/11/2009
249	25811	LAXMI GINNING AND PRESSING CO PVT LTD	17/11/2009
250	25824	BALLY TEA CO PVT LTD	17/11/2009
251	25826	MOHAMEDI EXPORTS (INDIA) PVT LTD	17/11/2009
252	25830	EUROCAN PLASTIC PVT LTD	17/11/2009
253	25834	OASIS CONSULTANCY PVT LTD	17/11/2009
254	26348	ALLIED FARMS & ESTATES CO PVT LTD	17/11/2009
255	27760	SPARROW AUTO INDUSTRIES PVT LTD	17/11/2009
256	28911	JAI BALGOPAL HOLDINGS PVT LTD	17/11/2009
257	29323	GANESH AUTO ELECTRIC PVT LTD	17/11/2009

258	29490	KOSHA SYSTEMS AND MARKETING PVT LTD	17/11/2009
259	29969	HARISH HOTELS & RESTAURANTS PVT LTD	17/11/2009
260	30138	BARODA CINE ENTERPRISES PVT LTD	17/11/2009
261	30140	BISONS ENGINEERS PVT LTD	17/11/2009
262	30141	PRSA FINANCIAL & TECHNOLOGY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
263	30147	CONSORTIUM CONSULTANTS ENGINEERS PVT LTD	17/11/2009
264	30155	MAFEL IMPEX PVT. LTD.	17/11/2009
265	30156	HEENA TRAVELS PVT LTD	17/11/2009
266	30192	PERFECT PROJECT SIMULATIONS PVT LTD	17/11/2009
267	30197	SAHAKARI CHEMICALS PVT LTD	17/11/2009
268	30200	DURGA CONSULTANTS PVT LTD	17/11/2009
269	30204	ADARSH HOTEL CONSTRUCTION DEVELOPMENT & INVESTMENT CO. PRIVATE LIMITED	17/11/2009
270	30209	ASET PHARMACEUTICALS PVT LTD	17/11/2009
271	30211	RITU AUDIO VISUALS PVT LTD	17/11/2009
272	30218	DIAMOND CARGO CARRIERS PVT LTD	17/11/2009
273	30223	HINA AUTOMOBILES PVT LTD	17/11/2009
274	30227	SHANTI TEXTILES&GARMENTS PVT LTD	17/11/2009
275	30232	VTC SOLAR SYSTEMS PVT LTD	17/11/2009
276	30238	PAVLOLA TRADING AND INVESTMENT COMPANY PVT LTD	17/11/2009
277	30240	YOGI SYNTHETICS PVT LTD	17/11/2009
278	30244	RUPAM DYES&CHEMICALS PVT LTD	17/11/2009
279	30246	KETAK JHAVERI INVESTMENT PVT LTD	17/11/2009
280	30256	AVNI CHEMICALS INDUSTRIES PVT LTD	17/11/2009
281	30257	SUREKHA FINANCE PVT LTD	17/11/2009
282	30264	CONCORDE VIDEO PVT LTD	17/11/2009
283	30271	HY-FOAM PVT LTD	17/11/2009
284	30273	HAPPY GARMENTS PVT LTD	17/11/2009
285	32771	XENIX CONSULTANTS PVT LTD	17/11/2009
286	33044	HIGHWAY TRAVELS PVT LTD	17/11/2009
287	33085	METRONI LABORATORIES PVT LTD	17/11/2009
288	33106	SANJAYKUMAR KHUSHALCHAND ENGINEERING PVT LTD	17/11/2009
289	33144	RAINBOW RESORT PVT LTD	17/11/2009
290	33182	CENTURY FARMS PVT LTD	17/11/2009
291	33185	INNOVATIVE RUBTECK (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
292	33186	ASWATHI INVESTMENTS CO PVT LTD	17/11/2009
293	33235	HIMALAYA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
294	33302	SHEWAAR CHEMICO EXPORTS & IMPORTS PVT LTD	17/11/2009
295	33308	SHISHIR PAPER & ALLIED INDUSTRIES PVT LTD	17/11/2009
296	33311	KALA STEELS & ALLOYS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
297	33313	SANMITRA HOTEL PVT LTD	17/11/2009
298	33341	SHRICHROMOGEN DYE STUFFS PVT LTD	17/11/2009
299	33356	SOUND TECHNICAL SERVICES PVT LTD	17/11/2009
300	33362	KUTCHI ARAMPURE FOOD PVT LTD	17/11/2009
301	33373	GREY HOUND ESTATE & FINANCE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
302	33377	BHATNAGAR TRADE EXHIBITIONS PVT LTD	17/11/2009
303	34229	BOMBAY FERRO FABRIK PVT LTD	17/11/2009
304	35013	FELPIN INVESTMENT & TRADING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
305	37865	STANLEY AUTO INDUSTRIES PVT LTD	17/11/2009
306	39370	SONA PRINTING & PACKAGING PVT LTD	17/11/2009
307	39482	CANARA ELECTRIC WORKS PVT LTD	17/11/2009
308	40982	KUNDAN EXPORTS PVT LTD	17/11/2009
309	41935	AMARAPALI HOTELS PVT. LTD.	17/11/2009
310	41942	JAILAXMI AGENCIES PVT. LTD.	17/11/2009
311	41947	NTV HOLDINGS PVT. LTD.	17/11/2009
312	41948	STEELCRAFT FUNITURES (INDIA) PVT. LTD.	17/11/2009
313	41966	ESGEE CONSULTANTS PVT. LTD.	17/11/2009

314	41986	ADAMAS GEMS PVT. LTD.	17/11/2009
315	41994	SUVAN FARMS PVT. LTD.	17/11/2009
316	41997	MANISH TRANSPORT PVT. LTD.	17/11/2009
317	42006	IRONIC MICROPROCESSORS (INDIA) PVT. LTD.	17/11/2009
318	43216	KAPRIYA PHARMACEUTICALS PVT LTD	17/11/2009
319	43219	MIDAS FUND MANAGEMENT AND SERVICES PVT LTD	17/11/2009
320	51608	BIJRAULIA EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
321	51990	SIMACO EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
322	51997	SHREE AIR LAND CARRIERS PVT LTD.	17/11/2009
323	52010	FRANC FIELD ENGINEERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
324	52015	BLUE-CHIP WAREHOUSING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
325	52021	JADES SHIPPING PVT LTD.	17/11/2009
326	52024	MANALI IMPEX PVT LTD.	17/11/2009
327	52032	BLUE CHIP AUTO CONSULTANTS PVT LTD.	17/11/2009
328	52035	MIDHAR INVESTMENTS & TRADING PVT LTD.	17/11/2009
329	52042	KAILASHWAR FILMS PVT LTD.	17/11/2009
330	52050	NAYANSHIL FINANCE & TRADING PVT LTD.	17/11/2009
331	52058	INNOVISION MEDIA PVT LTD.	17/11/2009
332	52071	BENJO TRAVELS PVT LTD.	17/11/2009
333	52082	VISHAKA INN PVT LTD.	17/11/2009
334	52105	SUCCESS MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PVT LTD.	17/11/2009
335	52106	SMASH LEASERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
336	52111	HAPPY FINANCE PVT LTD.	17/11/2009
337	52112	VIMAYA INVESTMENTS PVT LTD.	17/11/2009
338	52113	PURULIA EXPORTS PVT LTD.	17/11/2009
339	52118	VISHWAKARMA SOFTWARE PVT LTD.	17/11/2009
340	52123	VIESS AUTOMOTIVE COMPONENTS PVT LTD.	17/11/2009
341	52129	SMASH CHEMICALS PVT LTD.	17/11/2009
342	52136	CANAM HEALTHCARE PVT LTD.	17/11/2009
343	52137	ASWAM INFORMATION MANAGEMENT PVT LTD.	17/11/2009
344	52154	JANGID CHHEDA DEVELOPERS PVT LTD.	17/11/2009
345	52159	TTT TIDEWATER PVT LTD.	17/11/2009
346	52160	T.S.EXPORTS & TRADE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
347	52164	KHATIB INVESTMENTS & TRADING PVT LTD.	17/11/2009
348	52166	NAVCHETAN REAL ESTATE PVT LTD.	17/11/2009
349	52170	NICE RICE PRODUCE PVT LTD.	17/11/2009
350	52175	KAVA ELECTRONIC PVT LTD.	17/11/2009
351	52185	PROF. GAZI'S EDUCATIONAL ACADEMY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
352	52186	HANDYMAN ELECTRONIC COMPUTER SERVICES PVT LTD.	17/11/2009
353	52188	JALA DEVELOPERS PVT LTD.	17/11/2009
354	52194	ORANGE CITY ADVERTISING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
355	52201	COMPCO ENGINEERING PVT LTD.	17/11/2009
356	52204	ENVIRODIP BEAR PVT LTD.	17/11/2009
357	52205	KANCHAN ZIPPERS PVT LTD.	17/11/2009
358	52206	PRONTO TRAVELS (INDIA) PVT LTD.	17/11/2009
359	52231	MARVEL COATERS (INDIA) PVT. LTD.	17/11/2009
360	52237	ABHIYAN FINANCE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
361	52245	JAIHIND HOTELS AND RESTAURANTS PVT. LTD.	17/11/2009
362	52249	CHHABRIA SECURITY AND MAINTENANCE SERVICES PVT. LTD.	17/11/2009
363	52254	BLUE CHERRY COMMUNICATIONS PVT. LTD.	17/11/2009
364	52280	ZUBIM EXPORTS PVT. LTD.	17/11/2009
365	52301	ROMANO ADVERTISING PVT. LTD.	17/11/2009
366	52309	AYUSH MARKETING COMPANY PVT. LTD.	17/11/2009
367	52312	PATHAK DESIGNERS AND CONSULTANTS PVT. LTD.	17/11/2009
368	52313	AGNIHOTRI HIREPURCHASE AND FINANCE PVT. LTD.	17/11/2009
369	52321	CHIRAG IMPEX PVT. LTD.	17/11/2009

370	52332	VICKY MOVIES PVT. LTD.	17/11/2009
371	52340	RENUKA DAIRY PVT. LTD.	17/11/2009
372	52360	URJITA ESTATES PVT. LTD.	17/11/2009
373	52370	SHREEJI LEATHERS AND IMPEX PVT. LTD.	17/11/2009
374	52376	LAL BUILDING BHADUT NANDAL PVT. LTD.	17/11/2009
375	52387	MICRO EXPRESS COMPUTERS PVT. LTD.	17/11/2009
376	52388	ALIBAUG HOLIDAY HOMES PVT. LTD.	17/11/2009
377	52402	BLUEWINGS SHIPPING & FORWARDING COMPANY PVT. LTD.	17/11/2009
378	52410	PARAG LEASING AND FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.	17/11/2009
379	52413	RAJLAXMI LEASING PVT. LTD.	17/11/2009
380	52425	LYNRON IMPEX PVT. LTD.	17/11/2009
381	52442	DAX EXPO PVT. LTD.	17/11/2009
382	52446	AKRAJ MECHANICAL ENGINEERS PVT LTD.	17/11/2009
383	52451	BUILT SHANTA CONSTRUCTIONS PVT LTD.	17/11/2009
384	52452	ANI ANU DEVELOPERS PVT LTD.	17/11/2009
385	52453	EXCALIBUR CONSOLIDATED CAPITAL TRUST PVT LTD.	17/11/2009
386	52458	OPAL HOLIDAYS PVT LTD.	17/11/2009
387	52470	RAJDAN IMPEX PVT LTD.	17/11/2009
388	52493	SRI NATH CONSULTANCY AND SERVICES PVT LTD.	17/11/2009
389	52495	AMBEKAR ASSOCIATES ARCHITECTS PVT LTD.	17/11/2009
390	52498	REENA INVESTMENTS PVT LTD.	17/11/2009
391	52509	IMANDAR TRADING & INVESTMENTS PVT LTD.	17/11/2009
392	52513	INNOVATIVE LAND DEVELOPERS PVT LTD.	17/11/2009
393	52517	LODGESTATIX SERVICES PVT LTD.	17/11/2009
394	52524	GRACE GRANITES PVT LTD.	17/11/2009
395	52535	ONLINE IMAGESETTERS PVT LTD.	17/11/2009
396	52549	KALPATARU GRIHA VITT VINIYOG PVT LTD.	17/11/2009
397	52553	TAK METAL TRADING COMPANY PVT LTD.	17/11/2009
398	52559	SHUBH YAMUNA DEVELOPMENTS AND LEASING PVT LTD.	17/11/2009
399	52569	LOKAS COMPUTERS PVT LTD.	17/11/2009
400	52570	GAHLOT CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD.	17/11/2009
401	52586	MODERN SHIPWRIGHT PVT LTD.	17/11/2009
402	52619	RAINBOW CINE CRICLE PVT LTD.	17/11/2009
403	52639	KUSHITA INVESTMENTS & FINANCE PVT LTD.	17/11/2009
404	52640	DIMPLE DEVELOPERS PVT LTD.	17/11/2009
405	52644	STATUS REAL ESTATES PVT LTD.	17/11/2009
406	52652	SUNITA ADHESIVE INDUSTRIES PVT LTD.	17/11/2009
407	52659	CLEGHORN WILTON SURVEYORS PVT LTD.	17/11/2009
408	52671	PRAGEERA PHOTO PVT LTD.	17/11/2009
409	52682	KHAZANA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
410	52708	TREASURE INVESTMENTS PVT LTD.	17/11/2009
411	52714	GARLICK DESIGNING AND CONSULTANCY PVT LTD.	17/11/2009
412	52734	SUBIKA ENGINEERING PVT LTD.	17/11/2009
413	52743	HICALIBUR COMPUTER AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD.	17/11/2009
414	52746	SABAR DEVELOPERS PVT LTD.	17/11/2009
415	52750	M.D.PETIT ESTATE AND INVESTMENT PVT LTD.	17/11/2009
416	52757	OLYMPIC BUILDERS PVT LTD.	17/11/2009
417	52765	IMMERFORT EXPORTS PVT LTD.	17/11/2009
418	52766	KAPIL MARKETING PVT LTD.	17/11/2009
419	52767	SONAM WAREHOUSING AND COMPANY PVT LTD.	17/11/2009
420	52769	SHATAYU HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT LTD.	17/11/2009
421	52770	KOMOTEX EXPORTS PVT LTD.	17/11/2009
422	52772	KUNAL MOTORS PVT LTD.	17/11/2009
423	52773	SENIOR MARKETING PVT LTD.	17/11/2009
424	52778	ONLINE SYSTEMS AND PERIPHERALS PVT LTD.	17/11/2009
425	52782	FERETTI SHOES PVT LTD.	17/11/2009

426	52794	VASUDHA INVESTMENT AND LEASING PVT LTD.	17/11/2009
427	52815	REVELLE INVESTMENTS PVT LTD.	17/11/2009
428	52882	VIJAMI TRADING CO. PVT. LTD.	17/11/2009
429	52905	VIKRAJ AUTOMOBILES SALES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
430	52928	SAC SOFTWARES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
431	53098	CHAUGHULE WINES PVT. LTD.	17/11/2009
432	53878	PRECIOUS POLYMER PRODUCTS P LTD	17/11/2009
433	53969	EXCLUSIVE CREATIONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
434	53973	BALA GOPAL RESTAURANT P LTD	17/11/2009
435	53980	SHANTI VIJAY APPAREL P LTD	17/11/2009
436	53983	BODAD CONSTRUCTIONS P LTD	17/11/2009
437	53989	BHAGYAVANTI BUILDERS P LTD	17/11/2009
438	53990	ROMONA ESTATES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
439	53998	ASHA CLEARING AND FORWARDING P LTD	17/11/2009
440	54000	RACHNA IMPEX PRIVATE LIMITED	17/11/2009
441	54029	TREK MARKETING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
442	54042	MOONSON EXPORTS PVT LTD	17/11/2009
443	54052	MALL INVESTMENTS & HOLDINGS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
444	54055	OUR VILLE FRUITS PVT LTD	17/11/2009
445	54081	OMEGA OVERSEAS P LTD	17/11/2009
446	54089	ARIAN WIRE AND WIRE PRODUCTS P LTD	17/11/2009
447	54095	NIHAL HOLDINGS AND CONSULTANTS P LTD	17/11/2009
448	54096	SAMVEL HOLDINGS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
449	54116	PARTIK HOTELS P LTD	17/11/2009
450	54148	PROJECT EXPORTS INTERNATIONAL PVT.LTD.	17/11/2009
451	54150	WEL VAN RESORTS P LTD	17/11/2009
452	54155	ENICAR CARGO AND TRAVEL PRIVATE LIMITED	17/11/2009
453	54157	SWIFT ODDLOTS AND MANAGEMENT CONSULTANTS P LTD	17/11/2009
454	54167	SAI CIRCOITS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
455	54169	PRASAD FREIGHT CARRIERS P LTD	17/11/2009
456	54170	BAGADE INVESTMENTS P LTD	17/11/2009
457	54177	VULCAN GEMS P LTD	17/11/2009
458	54185	HIKARI IMPEX PRIVATE LIMITED	17/11/2009
459	54205	SATISH FERRO ALLOYS P LTD	17/11/2009
460	54208	WAQAS BUILDERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
461	54214	SILVER STREAK COURIERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
462	54221	DILKAM HOTELS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
463	54223	SIDDHA ADVERTISING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
464	54418	RAMAN TAR UDYOG PRIVATE LIMITED	17/11/2009
465	55905	PAPA'S ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
466	57082	TRIPLTECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
467	57436	EFFIMAX ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
468	57787	ADSOT ENGINEERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
469	57857	RAJ DESIGNS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
470	58081	CHAHAL INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
471	58511	RESOURCE LEASING & FINANCE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
472	58514	MADHUHIRA SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
473	58520	GLOW FIXTURES MARKETING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
474	58525	TEJU HOLDINGS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
475	58720	DR.GAGANCHANDRA BHARATI HOSPITALS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
476	58742	ARTEL TELEMATICS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
477	58758	MANZ EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
478	58759	BAITUL UBAID FINANCE AND INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.	17/11/2009
479	58764	GRASS LAND MOTELS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
480	58771	JAISONS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009

481	58776	FALAK TRAVELS & TRADE LINKS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
482	58788	MANISH ROADWAYS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
483	58814	RADIANT TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
484	58815	INFINITY EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
485	58819	TRAFALGAR HOTELS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
486	58830	KUNASO TRADING & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
487	58853	VIRANI FINANCE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
488	58856	MARKS PETRO MERCANTILE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
489	58861	DOUBLE-EM LEASING & FINANCE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
490	58880	SODEV PEER FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	17/11/2009
491	58884	DHARAMRAJ SALES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
492	58888	SHAILESHKUMAR AND BROTHERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
493	58901	R J MEHTA PRIVATE LIMITED	17/11/2009
494	58904	SURTAJ ASSETS AND CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	17/11/2009
495	58919	NIBLE COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
496	58936	GALAXY FOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
497	58941	BLACK ROSE GARMENTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
498	58949	SUBHASH HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
499	58955	SHANDOK INVESTMENTS & FINANCE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
500	58976	AWASTHI DETECTIVE & SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
501	58978	TASMIN TRADING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
502	59022	TRUCE RECOVERY SERVICE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
503	59157	KAYANDE WIREMACH PRIVATE LIMITED	17/11/2009
504	60046	KANAJA LEASING & FINANCE P LTD	17/11/2009
505	60148	MOTILAL SWEETS & COSMETICS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
506	61478	PREMSONS CONTROL CABLES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
507	62195	SIGMA KRISHI-RASAYAN PVT LTD	17/11/2009
508	62388	DESAI SECURITIES AND FINANCE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
509	62393	SONIC FLIGHT SERVICES PVT LTD	17/11/2009
510	62395	STOIC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
511	62399	RAGHUWANSHI TRADING COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
512	62406	MEVINAJ INVESTMENT PVT LTD	17/11/2009
513	62413	SUMOHA EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
514	62419	DWARSONS PROPERTIES PVT LTD	17/11/2009
515	62421	AMICOM TRADING & HOLDINGS PVT LTD	17/11/2009
516	62431	JESANG IMPEX PRIVATE LIMITED	17/11/2009
517	62457	YASHODHAN LEASING COMPANY PVT LTD	17/11/2009
518	62524	LABHSONS METAL WIRES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
519	62837	LAUREL WIRE ENAMALING COMPANY PVT LTD	17/11/2009
520	63300	MAYANK CABLE INDUSTRIES PVT LTD	17/11/2009
521	63320	MAHARASHTRA CONDUCTORS & WIRES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
522	63487	RUCHIR WIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
523	65905	MEHTA VALVES AND ACCESSORIES PVT LTD	17/11/2009
524	67646	LOTUS COMPUTER CENTRE PVT.LTD.	17/11/2009
525	68080	SANDEV WIRING SYSTEMS PVT.LTD.	17/11/2009
526	68515	AKANKSHA WIRE PRODUCTS PVT.LTD.	17/11/2009
527	68899	CHURNING MARKETING SERVICES PVT.LTD.	17/11/2009
528	68900	CLASSIC ENGINEERS AND CONTRACTORS PVT.LTD.	17/11/2009
529	68902	PATEL ELECTRO COMMUNICATION PVT.LTD.	17/11/2009
530	68913	ADINATH FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.	17/11/2009
531	68918	NINAD HOLDINGS PVT.LTD.	17/11/2009
532	68922	YANSARA INVESTMENT AND FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
533	68926	ALPA WOOD-PACK PVT.LTD.	17/11/2009
534	68932	ANAGHA FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
535	68939	VINIE SHELTERS PVT.LTD.	17/11/2009

536	68952	BANKURA INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
537	68956	PROMPT PROGRESS FINANCE AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
538	68960	MUSTARD LEASING & FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
539	68965	KAUSAR DEVELOPERS PVT.LTD.	17/11/2009
540	68969	GIRISH AND MANISH IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
541	68986	LILY LEASING & FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
542	68989	REUBEN INVESTMENT AND FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
543	69003	WONDER HOLDINGS PVT.LTD.	17/11/2009
544	69004	BACARDI INVESTMENT AND FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
545	69012	RAJDHANI RESORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
546	69896	AGGARWAL INSULEX PVT.LTD.	17/11/2009
547	71444	GOLD STAR INTERCOMS (INDIA) PVT.LTD.	17/11/2009
548	71799	YOGI CLIPCO PVT.LTD.	17/11/2009
549	71801	NEUMAG SCB INDIA PVT.LTD.	17/11/2009
550	71807	BONNE FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.	17/11/2009
551	71810	MENON LAND DEVELOPERS PVT.LTD.	17/11/2009
552	71856	MRUDUL TRADE & INVESTO COMPANY PVT.LTD.	17/11/2009
553	71866	CRC MATERIAL PRIVATE LIMITED	17/11/2009
554	71889	BINACA CREDIT & COMMERCIAL PRIVATE LIMITED	17/11/2009
555	71890	ARCHDEEP INVESTMENTS & FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
556	71897	EDDY MARKETING PVT.LTD.	17/11/2009
557	71900	KONKAN POWER COMPANY PVT.LTD.	17/11/2009
558	71902	KULKARNIS SHARE SERVICES PVT.LTD.	17/11/2009
559	71940	AMITSACHIN LEASEFIN PVT.LTD.	17/11/2009
560	71951	BHARATASHRI COMMERCIAL PVT.LTD.	17/11/2009
561	71960	STONE TABLE EXPORTS PVT.LTD.	17/11/2009
562	71965	NILACHAL SHIPPING PVT.LTD.	17/11/2009
563	71973	MEGA FINLEASE PVT.LTD.	17/11/2009
564	71995	RONI HOLDINGS & PROPERTIES PVT.LTD.	17/11/2009
565	71996	BADLAPUR PLA-TECH ENGINEERING PVT.LTD.	17/11/2009
566	72001	TIMMS DIRECT MARKETING PVT.LTD.	17/11/2009
567	72011	ORYX BUILDERS PVT.LTD.	17/11/2009
568	72012	KRITIKA PROPERTIES & DEVELOPERS PVT.LTD.	17/11/2009
569	72021	COMET COIR & FOAM PRODUCTS PVT.LTD.	17/11/2009
570	72031	ASHAPURA IMPEX PRIVATE LIMITED	17/11/2009
571	72034	NAVALGARH TRADING & FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
572	72038	PUSHPA PATRA FINANCE AND TRADING PVT.LTD.	17/11/2009
573	72053	ESSKAY ENTERPRISES PVT.LTD.	17/11/2009
574	72066	MAHARASHTRA REFRACTORIES & CASTABLES PVT.LTD.	17/11/2009
575	72069	ANSUPRA FINANCE & INVESTMENT PVT.LTD.	17/11/2009
576	72070	VERTEX GRANITES PVT.LTD.	17/11/2009
577	72095	LAN COMPUTER SERVICES PVT.LTD.	17/11/2009
578	72105	HOTEL CHINTAMANI PRIVATE LIMITED	17/11/2009
579	72108	SINGHAL INNOVATIVE PRODUCTS PVT.LTD.	17/11/2009
580	72133	EARLY BIRD LEASING & FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
581	72144	GRASP FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.	17/11/2009
582	72147	FENGDU INVESTMENTS PVT.LTD.	17/11/2009
583	72150	KESAVAN FISCAL SERVICES PVT.LTD.	17/11/2009
584	72155	KAPASI EXIM PRIVATE LIMITED	17/11/2009
585	72158	OSTRICH EXPRESS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
586	72176	WADHWANI EXPORTS PVT.LTD.	17/11/2009
587	72180	SARR CLEARING AND FORWARDING PVT.LTD.	17/11/2009
588	72219	HARMONY ELECTRONICS & DISPLAY MEDIA PVT.LTD.	17/11/2009
589	72253	KAR-KAR METAL TRADING PVT.LTD.	17/11/2009
590	72264	A-ONE AUTOMOBILES PVT.LTD.	17/11/2009
591	72273	CHANDRAN IMPEX PVT.LTD.	17/11/2009

592	72298	DIVESH DEVELOPERS PVT.LTD.	17/11/2009
593	72299	RAHUL IYER CONSTRUCTIONS PVT.LTD.	17/11/2009
594	72317	HARSHITA TRADING AND INVESTMENT PVT.LTD.	17/11/2009
595	72327	IVA LABORATORIES PVT.LTD.	17/11/2009
596	72343	INTERNATIONAL HOLIDAY EXCHANGES PVT.LTD.	17/11/2009
597	72349	MEHROX EDUCATION CENTRE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
598	72360	MANJUL TRADING AND INVESTMENT COMPANY PVT.LTD.	17/11/2009
599	72376	GALLEON INVESTMENT PVT.LTD.	17/11/2009
600	72377	STERLING BULLIONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
601	72382	AMVEER CONSTRUCTION COMPANY PVT.LTD.	17/11/2009
602	72388	PARSHWANATH YARN AGENCY PVT.LTD.	17/11/2009
603	72395	JOPLINE FINANCE & LEASING PVT.LTD.	17/11/2009
604	72396	COROPUNA FINANCE & INVESTMENTS PVT.LTD.	17/11/2009
605	72401	ADIM FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
606	72404	HASP INVESTMENT AND FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
607	72410	PARTHA AIR EXPRESS PVT.LTD.	17/11/2009
608	72416	PINAL FINANCE & INVESTMENTS PVT.LTD.	17/11/2009
609	72426	SAVITA TRADING AND FINANCE PVT.LTD.	17/11/2009
610	72429	AKSHAYA AEROMODELS PVT.LTD.	17/11/2009
611	76598	TAKEWELL RADIATORS P.LTD.	17/11/2009
612	77081	SUN LAB-LINE INSTRUMENTS P.LTD.	17/11/2009
613	78496	PRE-STRESS WIRES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
614	79090	SUDARSHAN DOORS & BOARDS P.LTD.	17/11/2009
615	82210	ALKA STEEL WIRES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
616	82700	PARSHURAM WIRE & PLASTIC (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
617	83270	NAGPUR WIRES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
618	83561	FIBERONICA CABLING SYSTEMS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
619	85414	SILVER TECH WIRES INDIA PRIVATE LIMITED	17/11/2009
620	86134	WINDING CONDUCTORS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
621	87846	ALPHA INSULATIONS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
622	88029	HIMALAYA SYSTEMS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
623	88351	INDO HAN SENG INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
624	92514	KATTY WIRE PRIVATE LIMITED	17/11/2009
625	92860	BHAWAL INSULATION & ENGINEERING PRIVATE LIMITED	17/11/2009
626	113146	YOGESHWAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
627	120996	MANSAROVAR WATER PRIVATE LIMITED	17/11/2009
628	134295	ATLAS ALCOHOLS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
629	134652	SHRI SIDHEE LIQUORS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
630	135213	MALT AND HOPS BREWERIES INDIA PRIVATE LIMITED	17/11/2009
631	135783	MOHAN WINE MERCHANTS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
632	135861	CONVERTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	17/11/2009
633	136198	TANVI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
634	138330	INDO ROYAL DISTILLERY AND WINERY PRIVATE LIMITED	17/11/2009
635	139455	HD BREWERIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
636	140188	KAMAL SONS BOTTLERS PRIVATE LIMITED	17/11/2009
637	141018	HR BEVERAGES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
638	141326	DN'S WINERY'S PRIVATE LIMITED	17/11/2009
639	147692	TRISTAR DISTILLERIES PRIVATE LIMITED	17/11/2009
640	148322	MAHAVEER LOKESH ENGINEERING PRIVATE LIMITED	17/11/2009

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Of the following Companies:

Mumbai, the 16th December 2009

No. ROC/560(5)/2009 – Notice is hereby given pursuant to Section 560, Sub-section (5) of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been Struck off the Register and the said Companies are dissolved :-

SR. NO.	REG.NO.	NAME OF THE COMPANY	u/s.560(5)
1	4348	SHOW TRUST PVT LTD	18/11/2009
2	5077	TRICY PVT LTD	18/11/2009
3	5079	INDIA COTTON SUPPLIERS PVT LTD	18/11/2009
4	5173	A B D CORPORATION PVT LTD	18/11/2009
5	5285	A.H. BHIWANDIWALLA & CO.(BOMBAY)PVT. LTD.	18/11/2009
6	5287	MODEL PICTURES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
7	5291	INDUSTRIAL &RESEARCH INSTITUTE PVT LTD	18/11/2009
8	5317	LAXMI MILL STORES CO PVT LTD	18/11/2009
9	5328	SHREE JALERAM CORPN PVT LTD	18/11/2009
10	5376	TRUSTIN PRIVATE LIMITED	18/11/2009
11	5408	WESTERN SYNDICATE PVT LTD	18/11/2009
12	5430	NAIR AGARWAL PVT LTD	18/11/2009
13	5490	SIRUR ART PRINTING PVT LTD	18/11/2009
14	5512	BOMBAAY WATCH DEALERS CORPN PVT LTD	18/11/2009
15	5526	KUTUB PUBLISHERS PVT LTD	18/11/2009
16	5553	ADVERTISING FILMS OF INDIA PRIVATE LIMITED	18/11/2009
17	5640	FAR EASTERN SYNDICATE PVT LTD	18/11/2009
18	6047	T U PATEL & SONS PVT LTD	18/11/2009
19	6074	RUSI PVT LTD	18/11/2009
20	6079	PARAKH IMPEX PVT LTD	18/11/2009
21	12472	SYNTHETIC GAS SALES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
22	13412	GROWRICH CHIT FUND PRIVATE LIMIED	18/11/2009
23	13415	SHREE JAGATPRIYA SAVING FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
24	13439	JEEVAN JYOT FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
25	13458	NEELKAMAL SAVINGS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	18/11/2009
26	13461	TROMBAY CHEMICALS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
27	13462	VELU PHARMA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
28	13466	SAILESH PRIVATE LIMITED	18/11/2009
29	13474	NENSEY FURNITURE WORKS PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
30	13483	INDIAN TRADING COMPANY (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
31	13492	SANTACRUZ CHIT FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
32	13496	LITGUIZ PRIVATE LIMITED	18/11/2009
33	13506	UNIQUE GEMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
34	13507	BAWAZIR FILM DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
35	13513	COMMONERS' AID PRIVATE LIMITED	18/11/2009
36	13547	PATIL ENGINEERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
37	13558	BILLIMORIA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	18/11/2009

38	13561	JIVAN FOODS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
39	13562	E.M. HARI CHIT FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
40	13569	WHITE LABORATORIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
41	13572	CHIT FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
42	13580	JANASEA BENEFIT CHIT FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
43	13586	KANJI JADHAVJI (SHIPPING) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
44	13587	KANJI JADAVJI (TRAVELS) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
45	13590	ASTHIKA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
46	13594	HEMANT PAPAR MILLS AND INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
47	13608	MANJU CHIT FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
48	13612	PARAS CHIT FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
49	13628	KAPADIA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	18/11/2009
50	13637	EXCEL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
51	13654	LAFFANS (INDIA)EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
52	15778	AURANGABAD STEEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
53	15800	JAN JAGRITI PRAKASHAN PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
54	16654	M GUNVANTRAI PRIVATE LIMITED	18/11/2009
55	16814	W D ESATES PVT LTD	18/11/2009
56	17618	PRATAP ESTATES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
57	17702	STANDARD ABRASIVES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
58	17703	JASMINE FILMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
59	17713	CREATIVE TEXTILES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
60	17714	ARITHANT FINANCE AND CHIT FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
61	17717	TRANSEASTERN LINES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
62	17718	BENDWEL TUBES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
63	17719	MONARCH LAMINATES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
64	17725	JYOTHI SAVINGS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
65	17727	JAI FILMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
66	17732	AMEZON RUBBER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
67	17733	SONAL DAIRIES AND AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
68	17742	SILVER LINING CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
69	17748	APEX GEOLOGICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
70	17751	MANIK TEXTILES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
71	17769	FURAN CHEMICALS AND FIBRES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
72	17771	SEASTAR CHIT FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
73	17777	BEST TOOL AND HARDWARE AGENCIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
74	17783	LALVANI BUILDING PREMISES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
75	17791	MANOHAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
76	17792	UMA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
77	17809	SOYNA RUBBER PRIVATE LIMITED	18/11/2009
78	17812	SKYPACK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
79	17818	NORTH SOUTH HOTELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
80	17828	MANCONS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
81	17829	M.B.ADVANI PRIVATE LIMITED	18/11/2009
82	17830	SANJEEV BUILDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
83	17835	SHREE GOPAL SAVING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
84	17841	S.S.S.FINANCE AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SERVICE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
85	17844	P S G CONSULTANCY AND AGENCIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
86	17848	HIMESH PHARMA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
87	17851	LEKO FOODS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
88	17856	EXPO MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
89	17858	ARDHANA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
90	17859	JAIRAZBHOY INVESTMENTS & TRADING COMPANY PVT. LTD.	18/11/2009

91	17860	VAASTU BUILDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
92	18057	UNIQUE SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
93	18065	NEW BASIC CHEMICALS & INTERMEDIATE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
94	18067	SUREKHA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
95	18070	MIRANDA AGRO INDUSTRIES RESEARCH PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
96	18071	ANIL PAPER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
97	18076	APACHE ENGINEERING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
98	18092	AJANTA CAPACITORS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
99	18098	HARSH EXPORTS PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
100	18102	UPADHYAYA AND SONS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
101	19895	ROYAL FILMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
102	20010	DIPPYS SALES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
103	20016	SURRENDRA SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT FOUNDATION PRIVATE LIMITED	18/11/2009
104	20020	YOGAKSHEMA FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
105	20031	JAL DOOT SHIPPING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
106	20040	TRAVEL GEM PRIVATE LIMITED	18/11/2009
107	20048	S.G.EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
108	20093	SHAH AND PADWAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
109	20114	C.H. GANDHI CONSULTING ENGINEERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
110	20920	SAMANTAR PRAKASHAN PVT LTD	18/11/2009
111	20942	DESA MARINE SERVICES & CHEMICALS PVT LTD	18/11/2009
112	20974	CROWN SCALE DIES AND TOOLS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
113	20985	J.D.INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
114	20986	NATHAN ASSOCIATES (EXPORTS) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
115	20998	AUTOMATIC DATA PRODUCTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
116	21001	VILA HOTELS PVT LTD	18/11/2009
117	21021	BANKERS ADVERTISING & MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
118	21032	SHRIMAL EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
119	21193	SHRI NIWAS AUTOMOBILE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
120	21210	VARDHAMAN CREATIVE PUBLICITY SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
121	21216	VISHWAKARMA BUILDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
122	21222	FRIENDS MOVIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
123	21238	KANTA PICTURES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
124	21241	RATNA HORTI STONE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
125	21254	GIRNA FARMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
126	21271	CHAIKA CAPSULES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
127	21281	TEJ FIBROFORMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
128	21292	SURFACE OIL COATING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
129	22373	PHEONIX IMPEX PRIVATE LIMITED	18/11/2009
130	22896	NATURAL FOAM PVT LTD	18/11/2009
131	23350	DRUCHEM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
132	23369	GRACE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
133	23409	GREYHOUND TRANSWAYS (INDIA) PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
134	23417	ARINDAM ESTATES AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
135	23433	OFFSHORE ONSORE SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
136	23448	CHAMPION EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
137	23454	BETTER LIVING HOTELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
138	23455	KEIRTZERS IMPEX PRIVATE LIMITED	18/11/2009
139	23467	MERCHANT MANAGEMENT SYSTEM PRIVATE LIMITED	18/11/2009
140	23475	SUPER ELECTRO-METALLIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
141	23479	BOMBAY TANK LORRY OPERATORS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
142	23482	LIONS HEART INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
143	23485	TTG CONSULTANTS & BUSINESS COMBINE PRIVATE LIMITED.	18/11/2009

144	23496	APM CHEMICALS PVT LTD	18/11/2009
145	23501	METALLOYS FABRICATORS(INDIA) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
146	23535	PANTHER ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
147	23538	MUTUAL MEDICAL RESEARCH SOCIETY PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
148	23543	ALLIANCE INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
149	25047	S D ADVERTISERS & EXPORTERS PVT LTD	18/11/2009
150	25050	LKS TRADING AND AGENCIES PVT LTD	18/11/2009
151	25051	ROOSHAD PATEL INVESTMENTS PVT LTD	18/11/2009
152	25055	D K S TRADING AND AGENCIES PVT LTD	18/11/2009
153	25064	METROPOLITAN STURCTURALS PVT LTD	18/11/2009
154	25065	RITA FINANCE INVESTMENTS PVT LTD	18/11/2009
155	25206	NUWAN INVESTMENT AND TRADING CO PVT LTD	18/11/2009
156	25207	SIRIAN TRADE AND INVESTMENT ENTERPRISES PVT LTD	18/11/2009
157	25208	AJMERA CEMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
158	25211	SIGMA CONSTRUCTIONS PVT LTD	18/11/2009
159	25214	SOHAM HOTEL PVT LTD	18/11/2009
160	25221	KOPA PHOTOTYPE SETTERS PVT LTD	18/11/2009
161	25323	NIBR METAL INDUSTRIES PVT LTD	18/11/2009
162	25332	M GOVARDHANDAS TRADING PVT LTD	18/11/2009
163	25347	20TH CENTURY TRAVEL TOURS PVT LTD	18/11/2009
164	25353	MASTER KEY CHARGE PVT LTD	18/11/2009
165	25358	JAYANTILAL TRADING & INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
166	25359	S P HINDUJA ESTATE PVT LTD	18/11/2009
167	25374	KEKI KOTWAL INVESTMENTSCO PVT LTD	18/11/2009
168	25376	PREMLOK EDUCATIONAL SOCIAL WELFARE TRUST PVT. LTD.	18/11/2009
169	25387	PILCO WAREHOUSING PVT LTD	18/11/2009
170	25390	KAPOOR CARPETS PVT LTD	18/11/2009
171	25400	RYLANDS EXPORTS PVT LTD	18/11/2009
172	25408	KANCHI CONSULTANTS PVT LTD	18/11/2009
173	25419	GREEN GARDEN HOUSING PVT LTD	18/11/2009
174	25425	SHREE INDRAPRASTH HOUSING DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
175	25445	SCAN CONTROL AND SYSTEMS PVT LTD	18/11/2009
176	25446	SHJIVASTAVA EXPORTS PVT LTD	18/11/2009
177	25501	ROL-TEX ENGRAVERS PVT LTD	18/11/2009
178	25517	TRINTY TECHNOMICS SERVICES PVT LTD	18/11/2009
179	25521	VINANT INVESTMENT AND FINANCE PVT LTD	18/11/2009
180	25522	VALOUR INVESTMENTS & FINANCE PVT LTD	18/11/2009
181	25525	SUDHAKOSHAL INVESTMENTS CO PVT LTD	18/11/2009
182	25527	SURESHCHANDRA ASHOK KUMAR PVT LTD	18/11/2009
183	25528	FOUNTANIHEAD EXPORTS INTERNATIONAL PVT LTD	18/11/2009
184	25530	A-I HOTELS PVT LTD	18/11/2009
185	25531	SAMANTA INVESTMENTS PVT LTD	18/11/2009
186	25538	NIAR NIRANJAN INVESTMENT CO PVT LTD	18/11/2009
187	25663	STRAFORD HOTELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
188	25755	HYD-AIR (LONAVALA) PVT LTD	18/11/2009
189	25756	EPE HYD-AIR PVT LTD	18/11/2009
190	25764	CENTAUR BUILDERS PVT LTD	18/11/2009
191	26990	TRUESIZE SHAFTINGS PVT LTD	18/11/2009
192	27276	ATLANTA CHEMICALS PVT LTD	18/11/2009
193	27280	BSJ BUILDERS PVT LTD	18/11/2009
194	27282	KHANDAR CATERERS PVT LTD	18/11/2009
195	28955	SHIRUR HOLDINGS PVT LTD	18/11/2009
196	29961	INTEGRATED IMPEX PVT LTD	18/11/2009

197	29964	BAGGA SILK MILLS PVT LTD	18/11/2009
198	29968	SHINGAR DELUXE SUPPLY AGENCIES PVT LTD	18/11/2009
199	29989	ZENITH CONSTRUCTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
200	29990	DESHMUKH ENGICHEM CONSULTANTS PVT LTD	18/11/2009
201	29992	OKAY INSULATIONS PVT LTD	18/11/2009
202	30002	SHABRI ART PROMOTION PRIVATE LIMITED	18/11/2009
203	30104	TRISTAR EXPORT PVT LTD	18/11/2009
204	31579	TELSTAR HOTELS PVT LTD	18/11/2009
205	31986	DEEPHEAT BURNERS PVT LTD	18/11/2009
206	32201	SWASTIK COOKING APPLIANCES PVT LTD	18/11/2009
207	32742	GOKHALE CONSTRUCTIONS PVT LTD	18/11/2009
208	32746	BEACON CHEMICAL ENGINEERS PVT LTD.	18/11/2009
209	32748	SUBHAM FABRICS PVT LTD	18/11/2009
210	32750	VEEKAY AGENTS PVT LTD	18/11/2009
211	32756	SHIRGAOKAR ASSOCIATEE CONSULATANCY PVT LTD	18/11/2009
212	32758	LALA BHAGWANDAS & SONS PVT LTD	18/11/2009
213	32776	NATURA LABORATORIES PVT LTD.	18/11/2009
214	32785	CASSAD DISTILLERIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
215	32793	MANGROLWALLA TUBES CONTAINERS PVT LTD	18/11/2009
216	32794	SHAMJIBHAI PARAKH INVESTMENT & TRADING PVT LTD	18/11/2009
217	32795	SOMESH FINANCE & INVESTMENTS PVT LTD	18/11/2009
218	32797	NAGENDRA PICTURES PVT LTD	18/11/2009
219	32801	COMPUTER KARISHMA PRIVATE LIMITED	18/11/2009
220	32803	GROMEX IMPEX PRIVATE LIMITED	18/11/2009
221	32805	BITUL HOSIERY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
222	32806	SUNMARK CONSULTANTS PVT LTD	18/11/2009
223	32815	BASIX CONSTRUCTION SERVICES PVT LTD	18/11/2009
224	32816	K.S. MORARKA & SONS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
225	32820	SIGNALS VIDEO PVT LTD	18/11/2009
226	32837	MANDLIA CONSTRUCTION CO.PVT LTD	18/11/2009
227	32986	MANIK CUTTLERY PVT LTD	18/11/2009
228	35771	PEE VEE CHEMICALS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
229	35787	UVAK ORGANICX INDUSTRIES PVT LTD	18/11/2009
230	35797	BASERA TRADERS PVT LTD	18/11/2009
231	35808	HINDIA GROWTH FUND PRIVATE LIMITED	18/11/2009
232	35809	SKYMARK AVIATION PRIVATE LIMITED	18/11/2009
233	35813	GOOD-HEALTH PHARMACEUTICALS PVT.LTD.	18/11/2009
234	35832	NEWCOMBE INVESTMENT AND TRADING COMPANY PVT LTD	18/11/2009
235	35839	PARTH HOLDINGS (INDIA) PVT LTD	18/11/2009
236	35856	RUPEN EXPORTS PVT LTD	18/11/2009
237	35858	BOMBAY SILICONE WATER PROFFING PVT LTD	18/11/2009
238	38220	INSTANT APPLIANCES PVT LTD	18/11/2009
239	38793	PRABHU HIRA LEASING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
240	39359	ADARSH APARTMENTS PVT LTD	18/11/2009
241	42246	ADNHA ENGINEERS PVT LTD	18/11/2009
242	45579	DEEPMANGAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	18/11/2009
243	45582	SNEKOK CHEMICALS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
244	45591	VIKA FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
245	45595	MANGESH COMMODITY BROKERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
246	45596	JOGANI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
247	45600	INTEGRATED RESOURCES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
248	45615	CENTAUR ELECTRONIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
249	45623	SHRI RAM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009

250	45629	WOODPECKER PLYWOODS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
251	45630	GENESIS CIRCULATIONS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
252	45631	SRI THEERTHA TRADERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
253	45634	SHREE KAR ENGINEERING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
254	45638	EXQUISITE ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
255	45640	PRIME MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
256	45647	MACHINEX AGENCIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
257	45662	ELVEEJAY SALES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
258	45666	MORYA SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
259	45667	STALLION WATER SUPPLY SYSTEMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
260	45668	SHREE NAKODAJI DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
261	45676	SHREE GANESH LUBE OIL PRIVATE LIMITED	18/11/2009
262	45680	WESTERN TWISTERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
263	45687	NEMCO TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
264	45688	KARNALA RESORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
265	45693	ODYSEY PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
266	45697	CAY DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
267	45698	JAICO ENGINEERS & FABRICATORS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
268	45699	VISHWASHANTI DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	18/11/2009
269	45700	YASHODHAN CONTRACTORS & LAND DEVELOPERS PVT. LTD.	18/11/2009
270	45712	DINSU TRAVELS & TOURS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
271	45715	POORVA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
272	45716	PANJA TRANSPORT PRIVATE LIMITED	18/11/2009
273	45721	TEKCON COATINGS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
274	45736	POORVA BUILDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
275	45737	SILICON MOTOR STAMPINGS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
276	45740	BETTER BUILD(INDIA) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
277	45742	SPACE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
278	45744	JAMVIR HOTELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
279	45763	FAIRY LAND BUILDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
280	45767	SANDEEP AGENCIES COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
281	45774	YASH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	18/11/2009
282	45781	MISHIL TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
283	45788	SUNERA EXPORT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
284	45793	SHANVIK MASS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
285	45802	VIP CLUB SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
286	45803	CANSUN INVESTMENT & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
287	45812	SUPERSINE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
288	45819	TRIMM EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
289	45821	SAI SIDDHI BUILDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
290	45824	LEELY LITE EXIM PRIVATE LIMITED	18/11/2009
291	45833	KINJAL COMPUTERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
292	45849	BHIMASHANKAR FARM PRIVATE LIMITED	18/11/2009
293	45854	FINE HAIR WAVE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
294	45857	GOODWRAP PACKAGING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
295	45867	KONARK COMPUTERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
296	45869	MUKHI TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
297	45871	GANATRA FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
298	45883	FOURFOLD PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
299	45903	MUMTAZ TOYS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
300	45909	TIDAL PHOTO WRITERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
301	45914	SILVER ROSE SILVERWARE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
302	45917	GATEWAY SAFARI PRIVATE LIMITED	18/11/2009

303	45922	RAJESHWAR IMPEX PRIVATE LIMITED	18/11/2009
304	45929	YOR-AUTOS LEASING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
305	45931	THACKER YOSHING COTTON PRIVATE LIMITED	18/11/2009
306	45932	MINATO BUILDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
307	45942	ALOK POLYPACK INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
308	45944	ELBEE REAL ESTATE & SAVINGS COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
309	45954	ROVA JEWELS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
310	45957	MAHAD ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
311	45966	SRI ART FOUNDATION & EXCHANGE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
312	45967	CAFE VRINDAVAN PRIVATE LIMITED	18/11/2009
313	50129	AAR CEE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
314	51403	SUNEETHA HOTELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
315	51408	VEENA RESORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
316	51415	DHRUV-CHEM PRIVATE LIMITED	18/11/2009
317	51420	MANOLATA SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
318	51992	RAKAM FINANCE AND MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
319	52168	SHREE NAKODAJI INVESTMENTS & FINANCE PVT LTD.	18/11/2009
320	52362	TRIKAYA ESTATE PVT. LTD.	18/11/2009
321	53684	WOODLAND APARTMENTS PVT. LTD.	18/11/2009
322	53707	SEKON CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.	18/11/2009
323	53720	SUNRISE EXPO EAST INDIA P LTD	18/11/2009
324	53736	EXCELLENT DIAM CUTTERS P LTD	18/11/2009
325	53771	ASVIR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	18/11/2009
326	53773	ARGENT EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED	18/11/2009
327	53777	THERMOGENO ENGINEERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
328	53783	RAIN-DROP CONSTRUCTION COMPANY P LTD	18/11/2009
329	53801	HEMOSH IMPEX PRIVATE LIMITED	18/11/2009
330	53814	SITARAM BROTHERS TRADING COMPANY P LTD	18/11/2009
331	53830	RITA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
332	53872	SHRITA IMPEX PRIVATE LIMITED	18/11/2009
333	53880	VIKAS SOFT WARE P LTD	18/11/2009
334	55081	PATSON INDUSTRIALISED BUILDINGS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
335	55102	SIRDAR SALES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
336	57700	BON-BON RESORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
337	57705	MAHARASHTRA PHARMA EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
338	57782	MARITIME INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
339	57794	MARATHWADA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
340	57862	VADVA TRADING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
341	57934	ABHIREET INVESTMENTS AND TRADING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
342	57957	NISHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
343	58000	BOSIMI EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
344	58006	RAMON TRAVELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
345	58022	ANTULAY TRAVELS & TOURS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
346	58025	CHEM-MECH CONSULTANTS (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
347	58030	SEA QUEST SHIPMANAGEMENT PRIVATE LIMITED	18/11/2009
348	58037	CONSTELLATION TRADING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
349	58039	DAAVAT GARDEN HOTELS & RESTAURANTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
350	58048	SURAKSHA APPLIANCES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
351	58051	ARKIN INVESTMENTS AND MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
352	58053	AVON RENTALS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
353	58062	VAYUDOOT MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
354	58064	PARK PACKAGING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
355	58065	SHREE SIDDIVINAYAKA HOTELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009

356	58072	VARISEN INVESTMENTS & FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
357	58075	CHAM SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
358	58105	TICICON FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
359	58124	SHREE PARASHNATH CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
360	58125	NITYANAND BUILDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
361	58137	EUREKA FIRE-TECH PRIVATE LIMITED	18/11/2009
362	58146	TRIMITI BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
363	58170	RASILA EXPORTS & FINANCE PRIVATE LIMITED	18/11/2009
364	58174	GOLDEN AVATAR ADVERTISING AGENCY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
365	58177	CONSOLIDATED STOCK ACTIVITIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
366	58184	APNA TRANSPORTERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
367	58188	BIG DEAL EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
368	58191	APEX CAPITAL AND ASSETS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	18/11/2009
369	58192	BEACON CAPITAL AND ASSETS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	18/11/2009
370	58193	ACROPOLIS CAPITAL AND ASSETS MANAGEMENT PVT. LTD.	18/11/2009
371	58198	PANCHRANG COLOR LAB PRIVATE LIMITED	18/11/2009
372	58211	TRISTAR FREIGHT FORWARDERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
373	58240	LAKSHMICHHAYA CAPITAL AND ASSETS MANAGEMENT PVT. LTD.	18/11/2009
374	58244	MONDIAL TRADING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
375	58250	BRIGHT UTILITY SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
376	58257	FORTUNE AIR CHARTERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
377	58258	VIKINGS MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
378	58269	LUSH MEADOW RESORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
379	58273	KOKAN PACK (EXPORTS) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
380	58286	SUNDHA MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
381	58291	SHREE NATHJI FILMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
382	58294	DEV FINTECH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
383	58385	MAAULI MATERNITY AND NURSING HOME PRIVATE LIMITED	18/11/2009
384	58409	HAROTI CREDIT & CAPITAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
385	58416	MAPLE PROPERTIES PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
386	58436	VITRAG FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
387	58459	JAGUAR TRAVELS PRIVATE LIMITED,	18/11/2009
388	58478	AVISA CATERERS PRIVATE LIMITED,	18/11/2009
389	58902	SHREE SAIJYOTI CATERERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
390	59300	RHOMA IMPEX PRIVATE LIMITED	18/11/2009
391	59824	OPAL OFFICE AUTOMATION P LTD	18/11/2009
392	59830	MEHTA AND SINDAL RESORT HOTEL P LTD	18/11/2009
393	59838	RYAN TOURISM DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	18/11/2009
394	59866	BHAGYAPRABHA HOTELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
395	59907	MIRUBIA EXIMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
396	60144	TUPAC GRANITES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
397	60254	GAIMUKH EXPORTS P LTD	18/11/2009
398	60261	CEDAR LABORATORIES P LTD	18/11/2009
399	60268	MAYANK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
400	60297	KUSHIKA MARKETING PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
401	60315	DARPAN FINANCIAL CONSULTANCY P LTD	18/11/2009
402	60348	AMJACKS ENGINEERING(BOMBAY) P LTD	18/11/2009
403	62027	COMACO CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTANCY PVT LTD	18/11/2009
404	62098	MONITOR ENCON PVT LTD	18/11/2009
405	62120	TENET INFOTECH PRIVATE LIMITED	18/11/2009
406	62126	SARAL AGENCIES PVT LTD	18/11/2009
407	62130	FAISAFE COMPUTERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
408	62133	STERLING MACHINERY SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009

409	62134	TEJOVRUSH INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	18/11/2009
410	62147	HEMANT MARKETING PVT LTD	18/11/2009
411	62150	GOLDVIEW SECURITIES PVT LTD	18/11/2009
412	62157	SUNIKEL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
413	62161	SMASH INVESTMENT CONSULTANT PVT LTD	18/11/2009
414	62162	TWINKLE CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD	18/11/2009
415	62171	KALPVRIKSH OVERSEAS PVT LTD	18/11/2009
416	62186	NATHDWAR PARYATAN SANKUL PVT LTD	18/11/2009
417	62189	PANKTI CAPITAL HOLDING PVT LTD	18/11/2009
418	62205	CHATUR HOLDINGS PVT LTD	18/11/2009
419	62217	PINKY TRADING PVT LTD	18/11/2009
420	62218	SANDHU FREIGHT SYSTEMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
421	62232	AGANI DEVELOPERS PVT LTD	18/11/2009
422	62234	KULKARNI CONSULTANTS PVT LTD	18/11/2009
423	62239	SHAINAL FINANCE AND TRADING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
424	62240	MANLAXMI LEASING FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT LTD	18/11/2009
425	62243	NAMITA EXPORTS PVT LTD	18/11/2009
426	62245	SONAL THERMOMETERS PVT LTD	18/11/2009
427	62247	BUBBLE INVESTMENT COMPANY PVT LTD	18/11/2009
428	62270	MIRAGE COURIER PRIVATE LIMITED	18/11/2009
429	62280	ALBUQUERQUE INVESTMENTS AND CONSULTANTS PVT. LTD.	18/11/2009
430	62282	NATSKI FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
431	62289	MARTAND MARKETING PVT LTD	18/11/2009
432	62300	LOTUS AND BEE DESIGNS PVT LTD	18/11/2009
433	62301	CHANDRAMOHAN FINANCE PVT LTD	18/11/2009
434	62307	BULLFINCH EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
435	62316	TOP GUN DETECTIVES & SECURITIES PVT LTD	18/11/2009
436	62318	GIRI SAN SALES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
437	62323	SEAWORTH CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
438	62329	SHREE SRINIVASA FILMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
439	62337	SASMEERA INDUSTRIAL MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
440	62345	TRICON MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
441	62366	KATHAR ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD	18/11/2009
442	62370	TOA IMPEX PVT LTD	18/11/2009
443	62684	LANDMARK HOLDINGS PVT LTD	18/11/2009
444	62715	WEIDER'S SPORTS (INDIA) PVT LTD	18/11/2009
445	62773	FORSON DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
446	62781	LEWIS ELECTRICAL ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD	18/11/2009
447	62819	JEMIMA FILMS PVT LTD	18/11/2009
448	62827	VAMAN EXPORTS PVT LTD	18/11/2009
449	62831	MONARCH HOLDINGS PVT LTD	18/11/2009
450	63702	SANTOSHI DOMESTIC APPLIANCES PVT.LTD.	18/11/2009
451	64333	RADHIKA COTTON MILLS P.LTD.	18/11/2009
452	64477	TIKMANI SYNTHETICS P.LTD.	18/11/2009
453	66056	MIKADO SYNTHETICS PVT.LTD.	18/11/2009
454	67038	DHANPATI ELCOMP & FIBRA PVT.LTD.	18/11/2009
455	67416	KRUPA APPLIANCES PVT.LTD.	18/11/2009
456	68139	KESHAV SYNTHETICS PVT.LTD.	18/11/2009
457	68306	MARSHAL TRAVEL GOODS PVT.LTD.	18/11/2009
458	69479	PRAYAG ENGINEERING INDUSTRIES PVT.LTD.	18/11/2009
459	69594	TALENT COMPUTER SYSTEMS PVT.LTD.	18/11/2009
460	69626	PRESTIGE SILK MILLS PVT.LTD.	18/11/2009
461	71011	OMEGA COMPUTER TRAINING PVT.LTD.	18/11/2009
462	71826	PILLAI AND PETER ASSOCIATES PVT.LTD.	18/11/2009
463	71833	MOHINI PVC PIPES & CASING PVT.LTD.	18/11/2009
464	71843	ALLIANCE TRAVELS PVT.LTD.	18/11/2009
465	71849	TANGIR CONSULTANCY SERVICES PVT.LTD.	18/11/2009
466	71855	NEW WAYS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
467	74134	NOVUS PERIPHERALS PVT.LTD.	18/11/2009

468	74917	SAHYADRI FANS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
469	75766	COMPUWIZ INDIA P.LTD.	18/11/2009
470	75948	ASSURANCE COMPUTER SERVICES P.LTD.	18/11/2009
471	76044	GOYAL SYSTEMS P.LTD.	18/11/2009
472	78178	KAYEMS VACUUM PUMPS P.LTD.	18/11/2009
473	78214	PRINT MASTERS FASHION FABRICS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
474	79573	BHILWARA FABRICS MARKETING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
475	83488	VAIBHAV GRANITES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
476	83517	ICON APPLIANCES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
477	83716	KARISHMA CLOTHING IMPEX PRIVATE LIMITED	18/11/2009
478	84294	PAYAL CREATION PRIVATE LIMITED	18/11/2009
479	84586	ANICO GRAPHIC & ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
480	84975	NO-TRUMPS FASHION PRIVATE LIMITED	18/11/2009
481	85372	RELIN MANUFACTURING PRIVATE LIMITED	18/11/2009
482	85476	SPACE APPARELS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
483	85840	ANNETTE EXPORTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
484	85956	SHREE JINDAL WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
485	86783	DUGAD POLYMER & WIRES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
486	87091	LLOYDS GARMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
487	87168	FORTEI GARMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
488	88766	PATEL HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
489	90494	LUCKWIN GARMENTS MANUFACTURING COMPANY PVT. LTD.	18/11/2009
490	91910	JAIPAN KITCHEN AID PRIVATE LIMITED	18/11/2009
491	94019	SIMTRON SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
492	98534	J.R.CONSUMER ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
493	101902	BLISS APPLIANCES PRIVATE LIMITED.	18/11/2009
494	103567	MIN HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
495	105406	KAIZEN SYSTEMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
496	110263	NEOLEX CABLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
497	110525	DYNAMIC SWITCHGEARS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
498	112763	UNITEX SHIPPING & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	18/11/2009
499	115251	HOMAX APPLIANCES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
500	116462	CRYSTAL FLORA-TECH PRIVATE LIMITED	18/11/2009
501	117421	ESBEE INDUSTRIAL SUPPLIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
502	118672	SHRI HARI KITCHEN APPLIANCES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
503	123984	SONGIR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
504	125728	MOBICON COMPONENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	18/11/2009
505	130432	KEENAN'S PRO AUDIO & VIDEO STUDIO PRIVATE LIMITED	18/11/2009
506	131722	AB WIRES AND ALLOYS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
507	132001	CRESTWOOD INSULATIONS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
508	134234	LIA WIRES AND CABLES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
509	135547	JALARAM WIRE FOAMS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
510	135961	PIONEER WIRE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	18/11/2009
511	141067	YASHOVARDHINI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	18/11/2009
512	145860	RATNA PROCESS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	18/11/2009

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Dy. Registrar of Companies

Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sreenidhi Apartments Private Limited
Ernakulam-682021, the 7th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2009/
00677—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Sreenidhi Apartments Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the Register and
the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kenton Hospitality Services Private Limited
Ernakulam-682021, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2009/
00313—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Kenton Hospitality Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the Register
and the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Heritage India Infraprojects and Developers Limited
Shillong-793001, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2009/
00212—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Heritage India Infraprojects and
Developers Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the Register and the said company will be
dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pranav Management Consultants Private Limited
Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/01002—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the

name of the M/s. Pranav Management Consultants
Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the Register and the said company
will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. P. R. M. Chits Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
01043—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. P. R. M. Chits Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajam Consultancy Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
01051—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Rajam Consultancy Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sasi Krishna Houses Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
01055—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Sasi Krishna Houses Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bajrang Distribution Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
01027—Notice is hereby given pursuant to sub-
section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date
hereof the name of the M/s. Bajrang Distribution Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Maruthi Insulators Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
00961—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Jai Maruthi Insulators Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajeswari Enterprises (Construction) Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
00943—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof
the name of the M/s. Rajeswari Enterprises (Construction)
Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the Register and the said company
will be dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. X-pert Financial and Management Consultants
Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
00951—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the

name of the M/s. X-pert Financial and Management
Consultants Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the Register and the
said company will be dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maniam Chit Funds Madurai Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
01039—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Maniam Chit Funds Madurai Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the Register and the said company will be
dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Teltekhaaar Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
01031—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Teltekhaaar Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S&S Medplast Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
01017—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. S&S Medplast Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swancon Consultants Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/01011—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of the
M/s. Swancon Consultants Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the Register
and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikas Microchip Technologies Private Limited

Chennai-600034, the 14th December 2009

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2009/
00993—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Vikas Microchip Technologies Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the Register and the said company will be
dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands